

graph
Premium Quality Hinges

S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.

D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 10 | अंक : 282 | गुवाहाटी | सोमवार, 13 मई, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

चारधाम यात्रा : देवभूमि की भव्यता और दिव्यता के कायल दिखे फिर्गी **पेज 2** मणिपुर में केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के छह कैडर चढ़े पुलिस के हथिये **पेज 3** इंडी गठबंधन और पाकिस्तान का डीएनए मिलता-जुलता : योगी **पेज 5** पहले दौर में हारे दीपक पुनिया, पेरिस ओलंपिक क्वालीफिकेशन को लगा झटका... **पेज 7**

पीओके में दूसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन, लोगों ने भारत से मांगी मदद, बोले- पाकिस्तान से दिला दो आजादी

राम मंदिर, सीएए और आरक्षण... बंगाल में पीएम ने दी पांच गारंटी

राष्ट्रपति जरदारी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग



मुजफ्फराबाद (गुलाम कश्मीर)। एकतरफ जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनावों की गहमागहमी है और दूसरी ओर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में बढ़ती महंगाई और बिजली की कमीतों के विरोध में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन हुए। इस दौरान पुलिस और पीओके के राजनीतिक-धार्मिक संगठन अवामी एक्शन कमेटी (एसीसी) के बीच झड़प हुई। इसी बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। साथ ही हालातों को सुधारने के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं। विरोध-प्रदर्शनों के साथ हिंसक झड़पों में एक पुलिस अधिकारी

की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए हैं। मौरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कामरान विनोद सोनकर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने कहा कि विपक्ष को सिर्फ वोटबैंक की चिंता है। शहजादे कहते हैं हम आएं तो 370 वापस लाएं। कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर को लटककर रखा। मोदी ने पांच साल में ही मंदिर का भूमिपूजन भी किया और राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा भी कर दी। सबको निमंत्रण भेजा गया लेकिन कोई प्राण-प्रतिष्ठा में नहीं गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए के जीतने को कोई संभावना नहीं। उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस का सूपडा साफ करना है और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने

पीओके भारत का है, हम उसे लेकर रहेंगे : अमित शाह

प्रतापगढ़ (हि.स.)। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) भारत का है, उसे हम लेकर रहेंगे। मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो क्योंकि इनके पास एटम बम है, पीओके मत मांगिए। राहुल गांधी, आपको एटम बम से डरना है तो डरिए, हम नहीं डरते। अमित शाह महेशगंज स्थित नायर देवी धाम में कौशांबी सी से भाजपा उम्मीदवार विनोद सोनकर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने कहा कि विपक्ष को सिर्फ वोटबैंक की चिंता है। शहजादे कहते हैं हम आएं तो 370 वापस लाएं। कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर को लटककर रखा। मोदी ने पांच साल में ही मंदिर का भूमिपूजन भी किया और राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा भी कर दी। सबको निमंत्रण भेजा गया लेकिन कोई प्राण-प्रतिष्ठा में नहीं गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए के जीतने को कोई संभावना नहीं। उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस का सूपडा साफ करना है और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने



कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी के शासन में घुसपैठिये पनप रहे हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों को गारंटी दी कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। बैरकपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को पांच गारंटी दीं। राम मंदिर फैसले पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कुण्ठम के उस दावे के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कसम खाई थी कि अगर कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर फैसले को पलट देंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष को आलोचना की और कहा कि उन्होंने सीएए को खलनायक बना दिया है और कहा कि सीएए नागरिकता प्रदान करने के लिए है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने लोगों से जो पैसा वसूला है, उसे कानूनन जनता को वापस दिया जाएगा। उन्होंने कहा

पीएम मोदी की पांच गारंटी

जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
जब तक मोदी है, एससी-एसटी-ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा।
जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा।
जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा।
जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा।
कि मोदी भ्रष्ट नेताओं को चैन से नहीं बैठने देंगे। उन्हें फटकार लगाई जाएगी। किसी भी भ्रष्ट नेता को बख्शा नहीं जाएगा। टीएमसी ने

SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

सुप्रभात
संसार में सफल और सुखी वही लोग हैं, जिनके अंदर विनय हो और विनय विद्या से ही आती है।
- ईश्वर चंद्र विद्यासागर

न्यूज गैलरी
मिस टीन यूएसए ने लौटा दिया खिताब



न्यूयॉर्क। मिस यूएसए नोएलिया वोगाट और मिस टीन यूएसए उमासोफिया श्रीवास्तव ने मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन को झटका देते हुए अपने-अपने खिताब त्यागने की इस सप्ताह घोषणा की। इन इस्तीफों के बाद 72 साल में -शेष पृष्ठ दो पर

नेताओं की दलबदल
अब हमें पार्टी कार्यालय के बाहर हाउस फुल का बोर्ड लगा देना चाहिए।

हिंसा से पहले 2023 में 2,480 अवैध हम तीन बार शादी करने वालों और बाल विवाह प्रवासियों का पता चला : मुख्यमंत्री सिंह करने वालों के खिलाफ हैं : सीएम डॉ. शर्मा

इंफाल। पूर्वोत्तर के राज्यों में अवैध प्रवासी एक बड़ा मुद्दा है। जिस पर जमकर राजनीति भी होती है, इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार 12 मई को कहा कि 2023 में पूर्वोत्तर राज्य में 2,480 अवैध प्रवासियों के बारे में पता चला था, लेकिन पिछले साल 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद अभियान बंद कर दिया गया था। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि बढ़ते वनों की कटाई और अवैध अप्रवासियों द्वारा नए गांवों की स्थापना को लेकर सरकार चिंतित है।



अप्रवासियों की पहचान करने वाली उप-समिति का प्रमुख बनाया गया था। सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल की उपसमिति ने साल 2023 में 2,480 अवैध प्रवासियों का पता लगाया था लेकिन पिछले साल हिंसा भड़कने के कारण इस अभियान को रोकना पड़ा। -शेष पृष्ठ दो पर

गुवाहाटी / नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। वहीं, तीन चरण में 280 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। जिसमें दो कुकी मंत्रियों लेतपाओ हाओकिप और नेमाचा किपेन ने भाग लिया था। हाओकिप को अवैध प्रवासियों की पहचान करने वाली उप-समिति का प्रमुख बनाया गया था। सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल की उपसमिति ने साल 2023 में 2,480 अवैध प्रवासियों का पता लगाया था लेकिन पिछले साल हिंसा भड़कने के कारण इस अभियान को रोकना पड़ा। -शेष पृष्ठ दो पर



हमारी नजर 14 में से 12 सीटों पर है। मुस्लिम बहुल इलाके वाली नगांव और करीमगंज 2 सीटों पर कांग्रेस और बदरुद्दीन बढ़ते हैं। इन दो सीट पर हमारे स्ट्रडिकेट 10 प्रतिशत का है जो इस बार बढ़कर 20 से 25 फीसदी बढ़ने जा रहा है। हम उन लोगों को अलग कर रहे हैं जो तीन बार शादी करते हैं। हम उन लोगों को अलग कर रहे हैं जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। हम उन लोगों को अलग कर रहे हैं जिनका उग्रवादियों के साथ सीधा संबंध है। प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी मुसलमान रहे हैं, लेकिन जब देश की संप्रभुता पर कुछ विचारधाराओं की बात -शेष पृष्ठ दो पर

फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में हरियाणा सरकार स्कूलों के बाद अब अस्पताल और एयरपोर्ट यह चुनाव भारत की आत्मा को सुरक्षित रखने का संघर्ष है : थरुर

चंडीगढ़ (हि.स.)। एक तरफ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार का गठन करने से पीछे हट गई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस व जजपा को घेरने के लिए सरकार ने फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल की 15 मई को होने वाली बैठक में सरकार यह फैसला लेकर विपक्ष को सकंते में डाल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को संकेत दिए कि हरियाणा सरकार लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर पर बहुमत साबित करने की तैयारी है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कांग्रेस से अपने सभी 30 विधायकों के हस्ताक्षरों वाला पत्र देने को कहा है, ताकि राज्यपाल फैसला ले सकें कि उन्हें क्या करना है। हालांकि, कांग्रेस ने राजभवन से अभी इस तरह के निर्देश जारी होने की पुष्टि नहीं की है। 88 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास फिलहाल 45 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि जजपा व कांग्रेस अपनी पार्टी के सभी विधायकों व एक इनेलो व एक -शेष पृष्ठ दो पर



नई दिल्ली। दिल्ली के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस संबंध में अस्पतालों को मेल मिला है। बड़ा हिन्दू राव, संजय गांधी अस्पताल, जानकी देवी अस्पताल और बुराड़ी अस्पताल को इस संबंध में मेल मिला है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही सर्च अभियान शुरू कर दिया। प्रारंभिक जांच में अस्पताल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। इन अस्पतालों में दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग के संजय गांधी अस्पताल के अलावा आईजीआई एयरपोर्ट को भी बम की धमकी वाला ईमेल मिला है। दिल्ली फायर सर्विस ने इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस द्वारा तलाशी अभियान -शेष पृष्ठ दो पर

मुंबई (हि.स.)। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरुर ने कहा कि लोकसभा का यह चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं बल्कि भारत की आत्मा को सुरक्षित रखने का संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकतंत्र व संविधान को खतरे में डाला है, खुलेतौर पर देश की विविधता को कमजोर किया है। थरुर ने दावा किया है कि 4 जून को केंद्र से भाजपा की सरकार जाएगी और इंडी गठबंधन की सरकार आएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरुर रविवार को मुंबई के कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। थरुर ने कहा कि तीन चरणों का मतदान -शेष पृष्ठ दो पर

लोस चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग आज, सभी तैयारियां पूरी रूस ने एक बार फिर मचाया कोहराम, पूर्वोत्तर यूक्रेन से हजारों नागरिकों ने किया पलायन

नई दिल्ली (हि.स.)। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं जम्मू-कश्मीर समेत 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसी चरण में आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। वहीं चार चरणों में घोषित 147 सदस्यों वाली ओडिशा विधानसभा की 28 सीटों पर भी मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक सोमवार को चौथे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण की सभी 17 सीटों, -शेष पृष्ठ दो पर

में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 17.7 करोड़ मतदाताओं के लिए कुल 1.92 लाख मतदान केंद्र बनाए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान सामान्य रहेगा। अधिक भारीदारी सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना में मतदान का समय बढ़ाया गया है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, -शेष पृष्ठ दो पर

कीव। यूक्रेन के उत्तर-पूर्व में रूस की ओर से जमीनी हमला तेज कर दिया गया है। कस्बों और गांवों को तोपखाने और मोर्टार से निशाना बनाया गया है। हजारों नागरिक वहां से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हुए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। लड़ाई तेज होने के बाद कम से कम एक यूक्रेनी इकाई को खार्किव क्षेत्र में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। गवर्नर ओलेह सिनीहुबोव ने कहा कि शुक्रवार से मास्को की सेना के अभियान शुरू होने के बाद से कम से कम 4,000 नागरिकों ने खार्किव छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि रविवार को पूर्वोत्तर सीमा रेखा पर भारी लड़ाई हुई, जहां रूसी सेना ने पिछले 24 घंटों में 27 बस्तियों पर हमला किया। विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिमी देशों द्वारा वादा की गई आपूर्ति अग्रिम पंक्ति तक पहुंचने से पहले रूसी सेना गोला-बारूद की कमी का फायदा उठाने के लिए यह कदम उठा रही है। वहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने कहा है कि रूसी आक्रामक इरादों को विफल करना अब हमारा नंबर एक लक्ष्य है। -शेष पृष्ठ दो पर



CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivaling, Nandi etc. **ARTICLE WORLD**, S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : 94350-48866, 94018-06952

मुंबई पुलिस ने राजस्थान में फैक्ट्री से 107 करोड़ की ड्रस बरामद की

मुंबई (हि.स.)। मुंबई पुलिस की टीम ने रविवार को राजस्थान के जोधपुर में छपा मारकर 107 करोड़ की ड्रस बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसे मुंबई लाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार साक्षीनाका पुलिस ने मुंबई में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इन तीनों ने पूछाछ के दौरान पुलिस को बताया कि वे यह ड्रा राजस्थान के जोधपुर से लाए हैं। इस पर रविवार को मुंबई पुलिस ने जोधपुर में छपा मारा और मौके डेड किलोग्राम एमडी ड्रा और 67 किलोग्राम एमडी ड्रा बनाने का केमिकल बरामद कर एक शख्स को गिरफ्तार किया।

चारधाम यात्रा : देवभूमि की भव्यता और दिव्यता के कायल दिखे फिरंगी

देहरादून (हि.स.)। देवभूमि की दिव्यता और भव्यता हमें बार बार खींच लाती है। यहां पहुंचकर जो सुकून और शांति मिलती है, उसको बयां नहीं कर सकते। ऋषिकेश से गंगोत्री तक जो सड़क और यात्रा सुविधाएं बढ़ी हैं, वह बेहतर हैं। हम गंगा के दर्शन को बारबार आना चाहते हैं। यह बातें चारधाम यात्रा पर गंगोत्री धाम पहुंचे इटली, आस्ट्रेलिया और नेपाल के श्रद्धालुओं ने देवभूमि उत्तराखंड की दिव्यता और भव्यता को लेकर कही। इटली के एंड्रिया ने कहा कि वह 14 साल में तीसरी बार गंगोत्री धाम पहुंचे हैं। यहां जो सुकून एवं शांति मिलती है, वह बार बार यहां आने को विवश करती है। 14 सालों में ऋषिकेश से लेकर गंगोत्री धाम तक सड़क और चारधाम से जुड़ी सुविधाओं में बेहतर सुधार हुआ है। उन्होंने कहा

चिरांग : हादसे में एक की मौत

चिरांग (हि.स.)। चिरांग जिलांतगत सिडली थानाक्षेत्र के सुंदरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 पर हुई एक सड़क दुर्घटना में एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने रविवार को बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक स्कूटी और एक बस सुंदरी चौराहे पर शनिवार की रात टकरा गई। गोसाइंवाली से बंगाईवांग की ओर आ रही गीतांजलि नामक बस (एएस-16एसी-1658) की ठोकर से स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान चिरांग के गरुभाषा थानाक्षेत्र के जीलायबाड़ी गांव के शनिराम सोरेन के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायलों की पहचान इसी गांव के प्रदीप सोरेन के रूप में हुई है। बाद में सिडली थाना पुलिस ने गंभीर रूप से घायल को बचाया और उसे काजलगांव के जेएसबी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया।

कि गंगोत्री में गंगा के दिव्य दर्शन के साथ योग एवं योगियों के सानिध्य भी मिलता है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ी इजाफा हुआ है। इसी तरह आस्ट्रेलिया से आए एंड्रेशा भी गंगोत्री धाम की दिव्यता की कायल दिखीं। उन्होंने कहा कि गंगा की सुंदरता और दिव्यता का अहसास मन को शांति और सुकून देता है। वह देवभूमि के दर्शन को हर बार आना चाहती है। उन्होंने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तारीफ की। कहा कि कठिन हालातों में भी धाम तक सुरक्षित सड़क एवं सुविधाएं जुटाना सम्पूर्ण का काम है। कुछ ऐसा ही पड़ोसी नेपाल और गुजरात से पहुंची महिला श्रद्धालुओं ने भी देवभूमि की खूबसूरती की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान स्थानीय प्रशासन ने उनकी जो मदद की है, वह

दस सालों में रायबरेली में नहीं हुआ कोई विकास कार्य : प्रियंका गांधी

रायबरेली (हि.स.)। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को रायबरेली में प्रचार के दौरान आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में रायबरेली में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ। भाजपा के शासन में रायबरेली की उपेक्षा की गई। प्रियंका गांधी ने हरद्वारपुर के कठवाला में आयोजित नुककड सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से बनारस के सांसद हैं, लेकिन एक बार भी वह किसी गांव में नहीं गए जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी



सिर्फ परीक्षाएं दे रहे हैं। परिवार पर बोझ बन जा रहे हैं। नोटबंदी को लेकर भी प्रियंका ने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे नोटबंदी की। उसके बाद जीएसटी लाई गई। छोटे व्यापारी आज भी इससे परेशान हैं।

जब प्रधानमंत्री थे तब वे गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते थे। उन्होंने कहा कि किसान आवागान जानकर भी समस्या से त्रस्त हैं। किसान कर्ज ले रहा है, चुका नहीं पा रहा और आत्महत्या कर रहा है। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ गई है। 30-30 साल के युवा आज भी सिर्फ परीक्षाएं दे रहे हैं। परिवार पर बोझ बन जा रहे हैं। नोटबंदी को लेकर भी प्रियंका ने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे नोटबंदी की। उसके बाद जीएसटी लाई गई। छोटे व्यापारी आज भी इससे परेशान हैं।

केजरीवाल ने दी 10 गारंटी बिजली, पानी रोजगार पर फोकस

नई दिल्ली (हि.स.)। आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव जीतने पर 10 गारंटी पुरा करने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार देने की बात कही। साथ ही जीएसटी और अग्निवीर से मुक्ति दिलाने का भी वादा किया। केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रविवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और 10 गारंटियों का जिज्ञा किया। पूरे देश में 24 घंटे सातों दिन बिजली जिसमें गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। देश के हर गांव-मोहल्ले में विश्वस्तरीय सरकारी स्कूल बनाकर सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। देश के हर जिले में विश्वस्तरीय अस्पताल और गांव-मोहल्ले में मोहल्ला क्लीनिक बना कर मुफ्त इलाज दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि चीन द्वारा कब्जा की भारत की जमीन छुड़वाने के लिए सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। अग्निवीर योजना बंद करके सभी अग्निवीरों को पक्का किया जाएगा।



स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक ही सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित कर किसानों को फसलों का पूरा दाम दिया जाएगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। बेरोजगारी खत्म करने के लिए अगले एक साल में दो करोड़ रोजगार देंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जीएसटी का आतंक खत्म किया जाएगा और इसे पीएमएलए से बाहर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में उनकी पार्टी ने मुफ्त पानी-बिजली और बेहतर स्वास्थ्य-शिक्षा का वादा किया था जिसे उन्होंने पूरा किया है। इससे पहले, पार्टी मुख्यालय में केजरीवाल ने अपने विधायकों से मुलाकात की। जेल से बाहर आने पर यह पार्टी विधायकों के साथ उनकी पहली मुलाकात थी।

पति के हमले में पत्नी की गई जान

धुबड़ी (हि.स.)। धुबड़ी शहर के 11 नंबर वार्ड के बहादुर तोड़ी इलाके में एक महिला की हत्या उसके पति द्वारा किए जाने का मामला रविवार को सामने आया है। पुलिस ने बताया कि बहादुर तोड़ी इलाके में नशे में भुत सृजन हालदार (50) ने पहले अपनी पत्नी पौलानी हालदार (40) से झगड़ा किया। जिसके बाद उसने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पौलानी हालदार को इलाज के लिए धुबड़ी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई।

O. O. No : 190

GENERAL NOTICE

This is for general information to all concerned that in partial modification of this Office Order No. 174 dated 25.04.2024 circulated vide Memo No. B/WLG/KNP Visit/2024/2025-45 dated 25.04.2024, the Jeep Safari in Kaziranga National Park & Tiger Reserve is hereby extended up to 31st May, 2024 for the current tourist season 2023-24 in the interest of public service subject to the weather conditions and further short notice to this effect.

Divisional Forest Officer
Eastern Assam Wildlife Division
-Janasanyog/ID/717/24/13-May-24 Bokakhat.

पृष्ठ एक का शेष

पाकिस्तान से दिला...

का प्रविधान, गेहूँ के आटे पर सब्बिडी और संपन्न वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग कर रहा है। बुधवार-गुरुवार की रात, मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजनों में उनके और उनके रिश्तेदारों के आवासों पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 70 जेएसपी कार्यालयों को गिरफ्तार किया। इससे गुरुवार को दायित्वालय में गंभीर झड़पें हुईं। यहां बुनियादी सुविधाओं की मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन होता रहता है। समिति ने मुजफ्फराबाद की ओर अपने नियोजित लंबे मार्च से एक दिन पहले शुक्रवार को शटर-डाउन और व्हील-जाम हड़ताल की घोषणा की थी। हड़ताल के बीच, मुजफ्फराबाद के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर झड़पें देखी गईं। अधिकारियों ने लोगों को शहर की ओर जाने से रोकने के लिए और अधिक गिरफ्तारियां करने के अलावा, मुजफ्फराबाद की ओर जाने वाले रास्तों पर मिट्टी के ढेर लगा दिए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि मुजफ्फराबाद और कुछ डिवीजनों में पूर्ण हमले हुए। एसएसपी कासिम बेग ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी और एक युवा घायल हो गया क्योंकि पुलिस ने कुछ इलाकों में आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग की। कोटली के एसएसपी मीर मुहम्मद आबिद ने बताया कि *विरोध की आड़ में उपद्रवियों के हमलों* में जिले में 78 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उधर पीओके में बिगड़ते हालातों के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार को इमरजेन्सी मॉडिफाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ने पाक अधिकृत कश्मीर में बने हालातों को सुधारने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। हिंसा के दौरान कई सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। तनाव को देखते हुए पीओके में धारा 144 लगा दी गई है। पीओके की सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने, रैली और जुलूस निकालने पर बैन लगाया है। वहां के कई इलाकों जैसे भिंभेर, बापा टाउन, मीरपुर में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई हैं। एसपीसी के प्रवक्ता हाफिज हमदानी ने बताया कि राज्य में हो रही हिंसा से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे तत्वों को जानबूझकर प्रदर्शनों के बीच में भेजा जा रहा है, जिससे एसपीसी को बदनाम किया जा सके। पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवार उल-हक ने कहा कि सरकार ने हिंसा पर काबू करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया है। हम शांतिपूर्ण तरह से बातचीत के लिए तैयार हैं, इसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हालांकि, इसे सरकार की कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। वहीं वित्त मंत्री अब्दुल मजिद खान ने कहा कि सरकार पहले ही एसपीसी की सभी मांगों को स्वीकार कर चुकी है। हमने एक समझौता भी साइन किया था, जिसमें आटे पर सब्बिडी और बिजली की कीमतों को 2022 के लेवल पर लाने की सहमति बनी थी। लेकिन एसपीसी एग्रोमेंट से मुकर गई। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लीडर उमर अयूब खान ने शहबाज सरकार को हालात काबू में रखने में असमर्थ बताया। पीटीआई ने कहा कि शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी नीति पाकिस्तान और लोकतंत्र के लिए खतरा है।

पीओके भारत का...

का काम मोदी ने किया। बाबा विश्वनाथ का दरवार भी मोदी ने फिर से बनाने का काम किया। मोदी ही उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं। एक-एक वोट मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएगा। गुहमंत्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी, तब गरीबों की जमीनों पर गुंडे कब्जा कर लेते थे। यहां गुंडों और माफिया का राज था, जनता परेशान थी। आपने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई। हमारे नेता योगीजी ने सभी गुंडों को सीधा किया, यहां से माफिया राज समाप्त किया और गरीबों की जमीनों को मुक्त करवाया।

राम मंदिर, सीएए...

आपसे जो पैसा वसूला है, वह कानून आपको वापस कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में टीएमसी के संरक्षण में चुसपैठिये पनप रहे हैं। 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल की आठ लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। निर्वाचन क्षेत्र बहरामपुर, कृष्णागर, राणाघाट, बर्धमान पुरवा, बर्दवान-दुर्गापुर, आसनसोली, बोलपुर और बीरभूम हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने राज्य में 34 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। सीपीआई (एम) ने 2 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिलीं। हालांकि, भाजपा ने 2019 के चुनावों में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। टीएमसी की 22 सीटों के मुकाबले 18 सीटें जीतीं। कांग्रेस की सीटें घटकर सिर्फ 2 सीटें रह गईं, जबकि वामपंथियों को एक भी सीट नहीं मिली।

हिंसा से पहले...

सीएम ने कहा कि उनकी सरकार किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि अवैध

अप्रवासियों के खिलाफ है। सिंह ने कहा कि चंदेल के दस गांवों में बायोमेट्रिक्स लिया गया था। इस दौरान 1,165 अवैध अप्रवासी पाए गए थे। तेंगनीपाल जिले के 13 गांवों में 1,147 अवैध अप्रवासी पाए गए, चुच्राचंदपुर में 154 अवैध अप्रवासी पाए गए। जबकि बाकी अवैध अप्रवासी कामजोंग जिले में पाए गए। सिंह ने ये भी बताया कि इन आंकड़ों में कामजोंग जिले में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त 5,457 अवैध अप्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि 5,173 लोगों के बायोमेट्रिक्स लिए गए हैं, जबकि 329 प्रवासी पड़ोसी देश में स्थिति ठीक होने के बाद अपनी मर्जी से वापस लौट आए हैं। सिंह ने आगे कहा कि अवैध अप्रवासियों का पता लगाना केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे मणिपुर राज्य को कवर करना था। गांवों का दौरा करने के बाद उनके बारे में पता चल सका। हालांकि अवैध अप्रवासियों की पहचान करने का अभियान शुरू होने के एक महीने बाद ही 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़कने के चलते बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही सीएम एन बीरन सिंह ने जिनेवा स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ज्यूरिस्ट्रस (आईसीजे) पर कड़ी निराशा व्यक्त की, जिसने हाल ही में भारतीय अधिकारियों को मणिपुर में निर्वासन रोकने का आदेश दिया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या संगठन को स्वदेशी आबादी के सामने आने वाली कठिनाइयों और अवैध अप्रवासियों के कारण वनों को कटाई, जनसंख्या की चुनौतियों और पोस्ते की खेती के मुद्दों के बारे में पता है। उन्होंने कहा कि संगठन का बयान एक गैर-जिम्मेदाराना बयान है। सीएम से साफ कहा कि केंद्र और मणिपुर सरकार दोनों उनके अधीन नहीं हैं। सीएम ने कहा कि निर्वासन जबरन नहीं किया गया था और इसके लिए कोई कानून नहीं तोड़ा गया था। बल्कि ज्मिआर के अधिकारी कागजी कार्रवाई और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें लेने आए थे। सीएम ने कहा कि जिन गैर सरकारी संगठनों का ध्यान पैसा कमाने पर है, उन्हें राज्य के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मूल लोगों के अस्तित्व का मामला है। वहीं दूधे दि कि पिछले साल 3 मई को जातीय हिंसा के बाद राज्य में 219 से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। ये हिंसा तब भड़की थी जब मेइइई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल करने की मांग के विरोध में राज्य के पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था।

हम तीन बार शादी...

आती है तो आप उन्हें मुख्य रूप से बोनस नहीं दे सकते, क्योंकि वे अल्पसंख्यक समुदाय हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने का आह्वान किया। कांग्रेस पर संविधान को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणापत्र में कहती है कि व्यक्तिगत कार्गुओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। संविधान कहता है कि आपके पास व्यक्तिगत कानून नहीं हो सकते क्या यह महात्मा गांधी और बीआर अंबेडकर की सोच के खिलाफ नहीं है? उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यह देश में अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय जाति जनगणना से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुसलमानों के बीच इसे करने का साहस रखें। राहुल गांधी जाति जनगणना में हिंदुओं को शामिल करने की बात करते हैं, मुसलमानों को नहीं? ईसाइयों और अन्य समुदायों के बीच जाति जनगणना होनी चाहिए। वहीं, पीएम मोदी को बहस की चुनौती देने पर राहुल गांधी पर बरसेते हुए सीएम हिमंत ने कहा कि राहुल गांधी नीने हैं? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जाएंगे और किसी से बहस करेंगे? कांग्रेस में उनकी स्थिति क्या है? वह संसद में पीएम मोदी के साथ बहस कर सकते थे। कांग्रेस उन्हें समय आवंटित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वे जानते हैं कि वह ऐसे बहस नहीं कर सकते। राहुल गांधी सैम पित्रोदा के माध्यम से अपनी बातें बोलते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए पिछले साल की तुलना में बेहतर स्थिति में है और पीएम मोदी के लक्ष्य के मुताबिक 400 सीटें जीत रहे हैं। हमारे लिए संविधान पवित्र है, यह गीता है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल भाजपा को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। वह पार्टी के भीतर दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है और हमेशा ऐसा करते रहेंगे। केजरीवाल को कैसे पता है कि किस मुख्यमंत्री को हटाना जाएगा? केजरीवाल की इस टिप्पणी पर कि पीएम मोदी को अगले साल सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए क्योंकि वह 75 वर्ष के हो जाएंगे, शर्मा ने कहा कि भाजपा ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। जिसके तहत राजनीतिक नेताओं को 75 वर्ष की आयु पार करने के बाद सेवानिवृत्त होना चाहिए।

फ्लोर टेस्ट के लिए...

निर्दलीय विधायक को जोड़ते हुए भाजपा सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी राजनीतिक अटकलों

को खारिज करते हुए कहा कि जजपा को वैसे तो बहुमत साबित करने की मांग नहीं करनी चाहिए थी लेकिन जब उन्होंने कर ही दी तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जजपा पूरी तरह से फूट का शिकार है। उसके छह विधायक हमारे संपर्क में हैं, जो फ्लोर पर भाजपा का साथ देंगे। इसी तरह, कांग्रेस ने भी अपने साथ 30 विधायक होने का दावा किया है, जो ठीक नहीं हैं। कांग्रेस के भी पांच से छह विधायक हमारे संपर्क में हैं, जो सरकार को अस्थिर करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हैं। मनोहर लाल ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से राज्यपाल को दिया गया पत्र अधिकृत नहीं है। उस पर हुड्डा के कार्यालय सचिव के हस्ताक्षर हैं, जिनकी कोई महत्ता नहीं है। वैसे भी राज्यपाल ने कांग्रेस से कह दिया है कि वह अपने 30 विधायकों के हस्ताक्षर करवाने के बाद राजभवन में पत्र दें।

स्कूलों के बाद...

चलाया जा रहा है। इसके अलावा अभी कोई अन्य जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के लिए बात दें, इन अस्पतालों से पहले दिल्ली और एनसीआर के इलाकों के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 1 मई को 150 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, जिसके बाद पुलिस की कई टीमों ने स्कूल परिसर की तलाशी ली थी। हालांकि, स्कूल में तलाशी ले रही टीम को कुछ भी नहीं मिला था। स्कूलों को भेजा गया ईमेल रूस से भेजा गया था। मई से पहले फरवरी में भी स्कूलों को ऐसी धमकियां मिली थी। बता दें, कुछ दिन पहले दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अधिकारियों के मुताबिक, रविवार को छुट्टी होने की वजह से अस्पताल के एडमिन को मेल के बारे में डेर से जानकारी मिली। मेल का पता चलते ही निदेशक से लेकर अन्य अधिकारी और चिकित्सक भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। जोड़ोवी अस्पताल में कोई भगदड़ न मचे और लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए मरीजों और तोमारदारों को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। फिहालहा पुलिस और बम स्क्वाड जांच कर रही है। हाल ही में दिल्ली-एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। पुलिस ने बताया है कि इसे फर्जी बताया था। धमकी भरा मेल मिलने के बाद लोगों में डर पैदा हो गया था। हालांकि, किसी भी स्कूल में कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिला था और गुप्त मंत्रालय ने मामले को जांच करने के आदेश जारी किए थे। साइबर एक्सपर्ट ने ऐसे मेल रूस के सर्वर से मेल भेजे जाने की बात कही थी।

यह चुनाव भारत ...

हो चुका है और सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में माहौल बदला नजर आ रहा है। थरु ने कहा कि संविधान ने जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की परवाह किए बिना यह स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं सोचती। भाजपा ने धर्म को नागरिकता में ला दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका प्रयोग हम बंद कर देंगे। भी सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। यह बहुत ही अपमानजनक है और देश व राजनीति के लिए उचित नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा का यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है बल्कि भारत की आत्मा को सुरक्षित रखने का संघर्ष है। भाजपा ने लोकतंत्र व संविधान को खतरा में डाला है। भाजपा की राजनीति को देखते हुए सभी समान विचारधारा वाले दल एक साथ आकर लड़ाई में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि 4 जून के बाद ऐसी सरकार आएगी, जो सही मायनों में सभी जाति व धर्मों का विकास करेगी और सबको साथ लेकर चलेगी। शशि थरु ने कहा कि चुनाव प्रचार में भाजपा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दों पर बात नहीं करती। भाजपा और नरेंद्र मोदी जनता के ज्वलंत सवालों से बचकर महत्वहीन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखते थे, जबकि नरेंद्र मोदी अब स्क्रिप्टेड साक्षात्कार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महापट्ट में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी के साथ पूरा तालमेल है और सभी पार्टियां मिलकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। हालांकि भाजपा ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ दिया है, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी मूल पार्टी के साथ हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान विपक्षी नेता विजय वडेईवार, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान, विधानसभा में उपनेता अमीन पटेल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बीएम सदीप, मुख्य प्रवक्ता अनुल लोडि, मीडिया कांग्रेस अध्यक्ष प्रजाति अहीर और प्रदेश प्रवक्ता भरत सिंह आदि उपस्थित थे।

लोस चुनाव के ...

उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 सीटों और जम्मू-कश्मीर की एक सीट पर मतदान होगा। अभी तक तीन चरणों में 20 राज्यों की 283 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान एक जून तक सात चरणों में पूरा होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। चौथे चरण के मतदान में 63 सीटें सामान्य, 20 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति लिए लिए आरक्षित

हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 18 है। इस चरण में 1.92 लाख मतदान केंद्रों पर 19 लाख से अधिक चुनाव कर्मी तैनात किए गए हैं। इस चरण में 17.70 करोड़ से अधिक मतदाताओं में 8.73 करोड़ महिला और 8.97 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। 85 से अधिक आयुक के 12.49 लाख से अधिक पंजीकृत और 19.99 लाख दिव्यांग मतदाता हैं, जिन्हें अपने घर से आराम से मतदान करने का विकल्प प्रदान किया गया है। चरण 4 के लिए 364 पर्यवेक्षक (126 सामान्य पर्यवेक्षक, 70 पुलिस पर्यवेक्षक, 168 व्यय पर्यवेक्षक) मतदान से कुछ दिन पहले ही अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन से सख्ती से और तेजी से निपटने के लिए कुल 4661 उड़न दस्ते, 4438 स्थैतिक निगरानी दल, 1710 वीडियो निगरानी दल और 934 वीडियो देखने वाली टीमों चौबीसों घंटे निगरानी रख रही हैं। कुल 1016 अंतरराज्यीय और 121 अंतरराष्ट्रीय सीमा चीकियां शराब, ड्रग्स, नकदी और मुफ्त वस्तुओं के किसी भी अवैध प्रवाह पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। समुद्री और हवाई मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी गई है। आंध्र प्रदेश की अराकू (एसटी), श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अनाकापल्ली, काकोनाड, अमलापुरम (एससी), राजमुंदरी, नरसपुरम, एलुरु, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, गुरु, नरसरावपेट, बापटला (एससी), ऑंगोल, नंडाव, कुरुनूल, नेल्लोर, तिरुपति (एससी), राजमपेट, चित्तूर (एससी), हिंदूपुर, अरनंदपुर और कडपा। बिहार की दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर। मध्य प्रदेश की देवास, उज्जैन, मंसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। महाराष्ट्र की नंदुरभार, अहमदाबाद, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड। ओडिशा की कालाहांडी, नबरंगपुर (एसटी), बेरहामपुर और कोरापुट (एसटी)। तेलंगाना की आदिलाबाद (एसटी), पेदापल्ली (एससी), करीमनगर, निजामाबाद, जूहीराबाद, मेडक, मल्काजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेवेल्ला, महबूबनगर, नलगोंडा, नागरकुनूल (एससी), भोंगिर, वागल (एससी), महबूबाबाद (एसटी) और खम्मम। उत्तर प्रदेश की शहजहांपुर, खीरी, धारुहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइत (एससी)। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर, कृष्णागर, राणाघाट, बर्धमान पुरवा, बर्धमान-दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम। झारखंड की सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू। भाजपा ने हैदराबाद में मौजूदा सांसद असदुद्दीन औवैसी के खिलाफ शास्त्रीय नृत्यांगना माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है। सिकंदराबाद में भाजपा के मौजूदा सांसद जी किशन रेड्डी तीसरी बार जीत के लिए उतरेंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय कुमार करीमनगर लोकसभा सीट पर बीआरएस के बी विनोद कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने परिवार के गढ़ में जीत के लिए मैदान में हैं। उनका मुकाबला भाजपा के सुब्रत पाठक से है। लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोड्डा पश्चिम बंगाल के कृष्णागर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की अमृता रांय के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। बहरामपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी का मुकाबला पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठन से है। आसनसोल में भाजपा नेता एएसए अहलुवालिया और तृणमूल के शत्रुज सिन्हा के बीच मुकाबला है।

रुस ने एक बार ...

हम उस कार्य में सफल होंगे या नहीं यह हर सैनिक, हर सॉजेट, हर अधिकारी पर निर्भर करता है। यूक्रेन को मिसाइल ने बेलगोरोड में एक रूसी अपार्टमेंट ब्लाक को निशाना बनाया। इससे 10 मॉडल अपार्टमेंट ब्लाक का एक पूरा हिस्सा ढह गया। इसमें सात लोग मारे गए और 17 घायल हुए। बेलगोरोड क्षेत्र पर सबसे घातक हमलों में से यह एक है। यूक्रेन ने दोचका बैलिस्टिक मिसाइलों और एडलर और आरएम-70 वैम्यायर मल्टीपल लांच राकेट सिस्टम के साथ हमला किया था। यूक्रेन की ओर से इसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है।

मिस टैन यूएसए ने ...

पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है जब मिस यूएसए और मिस टैन यूएसए का शिवाह किसी के पास नहीं है। चोइएट ने सितंबर 2023 में खिताब जीता था और वह यह ताज पहनने वाली पहली वेनेजुएलाई अमेरिकी थीं। उन्होंने सोमवार को इंस्टीग्राम पर पोस्ट किया कि मुझे उम्मीद है कि मैं दूसरों को दुद्र रहने, अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने, अपनी आवाज को सुनकर अपने और दूसरों के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे एहसास है कि यह कई लोगों के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत से कभी समझौता न करें। श्रीवास्तव को भी पिछले साल सितंबर में ताज पहनाया गया था। उन्होंने बुधवार को इंस्टीग्राम पर अपने पोस्ट में अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तिगत मूल्य अब संगठन से मेल नहीं खाते।

मणिपुर में केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के छह कैडर चढ़े पुलिस के हथ्थे दो अपहृत व्यक्तियों को मुक्त कराया गया



इंफाल (हिंस)। मणिपुर पुलिस के छहों को इंफाल पूर्वी जिले के क्षेत्रीयगोआ युमखेबम लीराक से

गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कैडर दो व्यक्तियों के अपहरण में

शामिल थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए छहों के पहचान चिंगखाम सनाजाओबा सिंह उर्फ सना उर्फ डोडो (23), सोइबम सीतल सिंह (24), माईबम नरेश सिंह (24), निंगथोजाम अजीत सिंह (26), चिंगसुबम थोनागाम्बा मैतेई उर्फ अमुजाओ (30) और वाहेंगबाम प्रेमजीत सिंह उर्फ अंबुंग (40) के रूप में हुई है। मणिपुर पुलिस ने इनके पास से दो अपहृत व्यक्तियों को मुक्त कराया है। साथ ही छापेमारी के दौरान 1 मारुति सुजुकी वैन, एक दोपहिया वाहन और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।

बेटे ने मां को जिंदा जलाकर मार डाला

शिवसागर (हिंस)। शिवसागर जिले के आमगुड़ी इलाके में एक बेटे द्वारा अपनी मां को बड़ी निर्ममता से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि आमगुड़ी के रजिबाम डिब्रूवाल इलाके में मानस गोगोई नामक एक युवक ने अपनी मां रीना गोगोई (60) के ऊपर लकड़ी डालकर जिंदा जला दिया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा आमगुड़ी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने हत्या के आरोपी मानस को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, पुलिस आग में जली महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस इस संबंध में हत्या का एक प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस के लिए अभ्यास वर्ग का आयोजन

गुवाहाटी (हिंस)। सेवा भारती पूर्वांचल, नेशनल मेडिकेयर ऑर्गनाइजेशन, असम आयुर्वेदिक मेडिकेयर ऑर्गनाइजेशन और ऑन्कोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहल के तहत गुवाहाटी के लांचित नगर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस को विधित करने के लिए एक अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. चिरंजीवी आदित्य कौरला समन्वयक, नेशनल मेडिकेयर ऑर्गनाइजेशन, असम, डॉ. अतिंद्र दास ने की। उद्घाटन भाषण सेवा भारती पूर्वांचल के अध्यक्ष रमन शर्मा देव ने दिया। डॉ. अशोक दास बीबीसीआई, 31 मई को इस दिन के कार्यक्रम में हेड एंड नेक स्पेशल, प्रोफेसर, डॉ. अरुंधति डेका, पूर्व असम राज्य नोडल अधिकारी, तबाकू, डॉ. कृपाश रंजन शर्मा नेशनल मेडिकेयर ऑर्गनाइजेशन, असम महासचिव, डॉ. पूर्णा देवी, डॉ. ममता देवी आदि विश्व तंबाकू निषेध से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। वचुंअल (वीडियो कॉन्फ्रेंस) के माध्यम से 33 जिलों के 56 सेवा अधिकारियों के अलावा, असम के 13 जिलों के लगभग 47 व्यक्तियों, पुरुष और महिला दोनों ने इस श्रेणी में भाग लिया। तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में बच्चों में ज्ञान एवं जागरूकता पैदा करने



के लिए बच्चों द्वारा 26 मई को शिल्पप्राम सांस्कृतिक सभागार, गुवाहाटी में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संगठन तंबाकू सेवन के हानिकारक तत्वों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए समाज के हर नुकड़ और कोने में इस लक्ष्य को फैलाकर सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं।

गुवाहाटी में हेरोइन के साथ चार तस्कर गिरफ्तार



गुवाहाटी (हिंस)। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने रविवार को 105 ग्राम हेरोइन के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह गिरफ्तारी राजधानी गुवाहाटी के खानापाड़ा बस स्टैंड के पास हुई। एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को दोपहर एक अभियान चलाया, जिसमें हेरोइन से भरे 77 कंटेनर जब्त किए गए। जब्त किए गए हेरोइन का वजन 105 ग्राम बताया गया है। तस्करों के पास से 7,220 रुपए नकद तथा 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान गणेश पातिर (24), शहीदुल हुसैन (27), पार्थ प्रतिम मेथी (23) तथा अमर प्रधाप (18) के रूप में हुई है। इस सिलसिले में कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है।

पूसीरे ने डिब्रूगढ़-सिकंदराबाद के बीच स्पेशल ट्रेन की सेवा अवधि बढ़ाई

गुवाहाटी (हिंस)। गर्मियों के अवकाश के दिनों में यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेल (पूसीरे) ने एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन संख्या 07046 व 07047 (सिकंदराबाद-डिब्रूगढ़-सिकंदराबाद) की सेवाओं को अवधि को बढ़ाने का निर्णय किया है। पूसीरे ने हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच सुपरफास्ट ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ग्रीष्मकालीन स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन दोनों दिशाओं में सात फेरों के लिए चलेंगी। पूसीरे के मुख्य जनसंपर्क

अधिकारी सब्यसाची दे ने रविवार को बताया है कि ट्रेन संख्या 07046 (सिकंदराबाद-डिब्रूगढ़) स्पेशल ट्रेन की सेवा को 20 मई से बढ़ाकर 24 जून कर दी गई है और यह हर सोमवार को खुलेगी। वापसी दिशा में 15 जून संख्या 07047 (डिब्रूगढ़-सिकंदराबाद) स्पेशल की सेवा को 23 मई से बढ़ाकर 27 जून कर दी गई है, जो प्रत्येक गुरुवार को खुलेगी। इन ट्रेन सेवाओं की अवधि बढ़ाने से उन मार्गों की अन्य ट्रेनों के प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन

से 05:55 बजे रवाना होगी और उसी दिन न्यू जलपाईगुड़ी 13:25 बजे पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन संख्या 02310 (न्यू जलपाईगुड़ी-हावड़ा) स्पेशल 15, 22, 29 मई, 05, 12, 19 एवं 26 जून (बुधवार) को न्यू जलपाईगुड़ी से 15:00 बजे रवाना होगी और उसी दिन हावड़ा 22:35 बजे पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए 13 एसी चेयर कार कोच होंगे। अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन वाया डानकुनी, बोलपुर (शान्ति निकेतन), मालदा टाउन और बारसोई रेलवे स्टेशन होकर चलेगी।

धुबड़ी में 2 करोड़ रुपए मूल्य का नकली नोट जब्त

धुबड़ी (हिंस)। असम पुलिस ने नकली मुद्रा के खिलाफ अभियान चलाकर धुबड़ी के चापर से लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य का जाली भारतीय मुद्रा जब्त किया। पुलिस ने रविवार को बताया कि पामखेड़ी चापर के सर्कल पुलिस अधिकारी और चापर के थाना प्रभारी के नेतृत्व में यह अभियान चापर के धीरघाट के भीतरी हिस्से में स्थित बरपोला में चलाया गया। चापर के धीरघाट निवासी साहिबुर इस्लाम नामक व्यक्ति को जाली मुद्रा नेटवर्क का संचालन करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 करोड़ के जाली नोटों को 7 लाख रुपए में बेचा जाना था।

गुवाहाटी के सातगांव में लगी भीषण आग

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी के सातगांव इलाके में रविवार को शाम लगी आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह आग सातगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल स्थित एक घर से लगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आग गैस सिलिंडर से लगी होगी। आगजनी की सूचना पाकर चंद्रपुर फायर स्टेशन से अग्निशामक गाड़ी के साथ पहुंचे अग्निशामक दस्ते ने काफी मशकत

त्रिपुरा में 800 ग्राम हेरोइन जब्त

अगरतला (हिंस)। त्रिपुरा के सेपाहीजैला के विशालगढ़ थाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से लगभग 800 ग्राम हेरोइन जब्त की है। त्रिपुरा पुलिस ने रविवार को बताया कि पुलिस ने जिला चिड़ियाघर के पास नाका चेंकिंग लगाकर एक मोटरसाइकिल को रोका। इस दौरान हेरोइन से भरे साबुन के 81 बक्से जब्त किए, जिसमें कुल 800 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने जब्त हेरोइन की कीमत करीब 1.2 करोड़ रुपए बताई है। पुलिस ने पहाड़पुर थाना अंतर्गत जातरपुर से एक अन्य तस्कर को हेरोइन सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

मणिपुर पुलिस ने 120 लोगों को लिया हिरासत में

इंफाल (हिंस)। मणिपुर पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों के संवेदनशील तथा दुर्गम इलाकों में सघन छापामारी तथा तलाशी अभियान चलाया। अभियान में भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के उल्लंघन के सिलसिले में 120 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आज बताया कि आवश्यक वस्तुओं के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 पर 193 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर 194 वाहनों को आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को व्यापक पैमाने पर तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि पहाड़ी और घाटी दोनों में मणिपुर के विभिन्न जिलों में 125 नाके और जांच चौकियां स्थापित की गई हैं।

तेंदुआ के हमले में एक घायल

शिवसागर (हिंस)। शिवसागर जिले के बेतवारी बोकालिब इलाके में एक तेंदुआ द्वारा हमला किए जाने की वजह से एक वृद्ध व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से मवेशियों को अपना शिकार बनाते आ रहा एक तेंदुआ द्वारा किए गए हमले में जयंत चेतिया (50) नामक वृद्ध व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

डिमापुर में पहला तथा पूर्वोत्तर में सातवां स्टोर सोहम शॉप खुला

डिमापुर। उत्तर-पूर्व भारत के प्रमुख शॉपिंग डेस्टिनेशन सोहम शॉप ने आज डिमापुर में भी उपस्थिति दर्ज करा दी है। सोहम का यह नगालैंड में पहला और पूर्वोत्तर में 7वां स्टोर है। यह डिमापुर की सप्लाई कॉलोनी रोड, मिडलैंड पर वेस्ट पुलिस स्टेशन के सामने है। यह स्टोर 22,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और ग्राहकों को सबसे आधुनिक परिधान, जूते, बच्चों के परिधान, सॉफ्ट और सहायक उपकरण, आभूषण, खिलौने और गृह सजावट प्रदान करता है। यह स्टोर पर्याप्त पार्किंग स्थान (लगभग 130+ पार्किंग स्थल) के साथ नगालैंड के लोगों को सबसे अच्छी खरीददारी अनुभव प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें 3 मंजिलों पर विभिन्न प्रकार के विख्यात ब्रांड और उत्पाद होंगे, जो वन-स्टॉप शॉपिंग गंतव्य की पेशकश



और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की एक विस्तृत श्रृंखला लाता है, जिसमें सुपरड्राई, गैस, जैक एंड जोन्स, सेलेक्टेड, फॉरएवर न्यू, वेरो मोडा, ओनली, रेयररिज्म, रेयर रैबिट, नॉटिका, यूएस पोलो, लेविंस और एफसीयूके शामिल हैं। नए डिमापुर स्टोर का विजुअल मर्केटिंग और स्टोर लेआउट सोहम द्वारा प्रदर्शित सर्वश्रेष्ठ में से एक है। स्टोर के माहौल में एक परिष्कृत और

आधुनिक लुक के साथ फर्श और फिक्स्चर प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग हैं, जिससे सुविधा बढ़ती है और एक सुखद खरीददारी अनुभव सुनिश्चित होता है। सोहम शॉप वर्तमान में गुवाहाटी में 2 और डिब्रूगढ़, जोहाट, तेजपुर और नाहरलगुन (अरुणाचल प्रदेश) में 1-1 स्टोर संचालित करता है। पहला सोहम शॉप स्टोर वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था, और

रंगिया महकमा सिविल अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस



रंगिया (विभास)। रंगिया महकमा सिविल अस्पताल में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। अस्पताल के कर्मचारी अमूल्य वैश्य द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में अस्पताल की सभी नर्सों सहित अस्पताल के एसडीएम ओ त्रैलोक्य नाथ, ज्येष्ठ चिकित्सक



सुनीता त्रिपाठी सहित बहुत से अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी नर्सों ने केक काटकर 'खुशियां मनाईं'। वहीं कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के कर्मचारी अमूल्य वैश्य ने अपनी ओर से अस्पताल की ज्येष्ठ नर्स रशीदा बेगम और प्रनिता तालुकदार को फूलाम गामोछ से सम्मानित किया।

सांगानेर से पधारी विदुषियों का धार्मिक संबोधन



गुवाहाटी। फैंसी बाजार के एमएस रोड स्थित भवान महावीर धर्मस्थल में शनिवार को श्री दिगंबर जैन भ्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जयपुर के अंतर्गत संचालित संत सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय सांगानेर, जयपुर से धर्मप्रभावना हेतु पधारी विदुषियों, उक्त महाविद्यालय की अधिपत्य श्रीमती शोला डोड्या तथा शिरोमणि सरस्विका एवं राष्ट्रीय महिला महासमिति की अध्यक्ष वती श्राविका सुशीला देवी पाटन (आरके मार्बलस, किशनगढ़ की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत मंगलाचरण, विदुषियों का

अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर रंगिया में नुकड़ नाटक समेत कई कार्यक्रम आयोजित

रंगिया (विभास)। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के दिन रविवार को रंगिया की सड़कों पर सास और बहु के बीच लड़ाई देखी गई। देखते ही देखते इस लड़ाई ने भयानक रूप धारण कर लिया। परंतु इसके बावजूद पुलिस व प्रशासन की कोई भूमिका नहीं देखी जा रही थी। दरअसल, ये कोई लड़ाई नहीं थी, यह एक नुकड़ नाटक था। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर पर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रंगिया के भारतीय सोशियल एंड कल्चरल नामक गुप द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

रंगिया के बीच स्थित हरदत्त-बीरदत्त भवन के सामने ओल्ड एज होम नामक इस नुकड़ नाटक के मंचन के माध्यम से गुप द्वारा वर्तमान समय में कुछ संतानों द्वारा अपने माता पिता पर चलाए जा रहे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न चलाने के साथ कई लोगों द्वारा विभिन्न समय पर वृद्धाश्रम भेजते देखा गया है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गुप द्वारा नुकड़ नाटक किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंतर्गत गुप द्वारा

सामाजिक कार्य कर लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। इसी कड़ी में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर तारुलता कलिता सहित कुल आठ वृद्ध माताओं को उनके घर जाकर सम्मानित किया गया। दूसरी ओर पिछले वर्ष रंगिया में स्थापित हुए, राज्य के राज्य के अनाथ लोगों के लिए सारथी शांति निवास नामक ट्रस्ट ने वर्तमान तक रंगिया क्षेत्र के बहुत से

के लिए ट्रस्ट की ओर से एक व्हीलचेयर, कम्बल, तर्किया, गद्दा प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर सारथी शांति निवास के संचालक बिपुल कलिता द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के मौके पर सैय्यद सफीकुर रहमान, तापस सम्मादर सहित बहुत से लोग उपस्थित रहे। वहीं सारथी शांति निवास के इस महान कदम की लोगों ने भारी सराहना की है।

अनुप्रभा लहकर, वीणापानी देवी, धीरेश्वरी कलिता, साजो कलिता, गोलापी कलिता, फुलकन कलिता, अंजलि भागवती शर्मा और तारुलता कलिता सहित कुल आठ वृद्ध माताओं को उनके घर जाकर सम्मानित किया गया। दूसरी ओर पिछले वर्ष रंगिया में स्थापित हुए, राज्य के राज्य के अनाथ लोगों के लिए सारथी शांति निवास नामक ट्रस्ट ने वर्तमान तक रंगिया क्षेत्र के बहुत से

सामाजिक कार्य कर लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। इसी कड़ी में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर तारुलता कलिता सहित कुल आठ वृद्ध माताओं को उनके घर जाकर सम्मानित किया गया। दूसरी ओर पिछले वर्ष रंगिया में स्थापित हुए, राज्य के राज्य के अनाथ लोगों के लिए सारथी शांति निवास नामक ट्रस्ट ने वर्तमान तक रंगिया क्षेत्र के बहुत से

के लिए ट्रस्ट की ओर से एक व्हीलचेयर, कम्बल, तर्किया, गद्दा प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर सारथी शांति निवास के संचालक बिपुल कलिता द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के मौके पर सैय्यद सफीकुर रहमान, तापस सम्मादर सहित बहुत से लोग उपस्थित रहे। वहीं सारथी शांति निवास के इस महान कदम की लोगों ने भारी सराहना की है।

संपादकीय

पाकिस्तान से डर या प्यार?

कांग्रेस

का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक नेता के बयान से फैला रायता समेटा नहीं गया होता कि तब तक किसी और नेता का विवादित बयान आ जाता है। राहुल गांधी के सलाहकार माने जानेवाले सैम पित्रौता ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गईं। पहले विरासत कर का मामला उन्होंने उछाला। चूँकि राहुल गांधी लगातार सम्पत्ति के सर्वेक्षण एवं आबादी के अनुपात में देश के संसाधनों पर अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिए सैम पित्रौता के बयान को इसी शृंखला का हिस्सा माना गया। हालांकि कांग्रेस ने पित्रौता के विचार से किनारा करने का प्रयास किया। परंतु तब तक पित्रौता ने भारतीय नागरिकों को चीनी, अफ्रीकी, अमेरिकी इत्यादि बता दिया। यानी रंग भेद एवं शारीरिक बनावट के आधार पर उनकी

पहचान को किसी दूसरे देश से जोड़ने का कारनामा कर दिया। यह बयान इतना विवादित था कि कांग्रेस को सैम पित्रोदा का त्यागपत्र स्वीकार करना पड़ गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के एक नेता ने

राम मंदिर के शुद्धिकरण करने की बात कहकर एक बार फिर राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की मानसिकता को उजागर कर दिया। कांग्रेस की ओर से इन बयानों पर लीपापोती की जाती, उससे पहले ही मणिशंकर अय्यर ने ऐसा बयान दे दिया, जिसके कारण से भाजपा को कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने का एक और सुअवसर मिल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए और अपनी सैन्य ताकत नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि इससे इस्लामाबाद नई दिल्ली के खिलाफ परमाणु हथियार तैनात करने के लिए परेशान हो सकता है। भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए अन्यथा उसे बुरा लग सकता है और वहाँ से कोई सिरफिरा

भारत पर हमला कर सकता है। मणिशंकर अय्यर का यह बयान एक तरह से पाकिस्तान की चुबान है। जैसे कोई पाकिस्तानी नेता भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा हो। उल्लेखनीय है कि इस सप्ताह की शुरुआत में, कांग्रेसनीत विपक्षी गठबंधन की प्रमुख पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने तीखी टिप्पणी की थी कि अगर उकसाया गया तो पाकिस्तान परमाणु बम का सहारा ले सकता है। अय्यर ने भी यही कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम हैं। हमारे पास भी हैं, लेकिन अगर कोई ‘पागल’ लाहौर पर बम गिराने का फैसला करता है, तो विकिरण को अमृतसर तक पहुँचने में 8 सेकंड नहीं लगेंगे। नि:संदेह, यह कांग्रेस का डर तो नहीं हो सकता अपितु उसके नेताओं का पाकिस्तान प्रेम अवश्य ही दिखता है। मणिशंकर अय्यर ऐसे नेता हैं, जिनका पाकिस्तान प्रेम अकसर जाहिर होता रहता है। हमेशा की तरह कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के बयान से पल्ला झाड़ लिया है लेकिन प्रश्न यह है कि कांग्रेस इस प्रकार के नेताओं को अपने साथ रखती क्यों है? पाकिस्तान की चुबान बोलनेवाले नेताओं से कांग्रेस हमेशा के लिए पल्ला क्यों नहीं झाड़ लेती? यदि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलनेवाले नेताओं को पार्टी में बनाए रखेगी तब देश का आम नागरिक यही मानेगा कि कहीं न कहीं पार्टी का पक्ष भी यही है। कांग्रेस को यदि जनता का विश्वास जीतना है, तब उसे मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं की हमेशा के लिए छुट्टी करनी होगी और इस प्रकार के विचारों की कड़ी निंदा करनी होगी।

कुछ

अलग

झारखंड में भ्रष्टाचार की असलियत

गैर भाजपा राजनीतिक दलों के लिए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार कोई चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है। यही वजह है कि खास तौर से क्षेत्रीय दलों की सरकारों में बेशर्मी से लूटने की होड़ मची हुई है। झारखंड में एक मंत्री के निजी सहायक के नौकर के घर से करीब 35 करोड़ रुपए मिलने पर किसी भी दल ने कठोर कार्रवाई की मांग तो दूर, बल्कि इस भारी-भरकम भ्रष्टाचार के लिए अफसोस तक जाहिर नहीं किया। यह पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की असलियत उजागर हुई हो। इससे पहले भी असीम सुखिंचो में रहे भ्रष्टाचार के मामलों में क्षेत्रीय दलों की अफसोस तक जाहिर नहीं किया। यह पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की असलियत उजागर हुई हो। इससे पहले भी असीम सुखिंचो में रहे भ्रष्टाचार के मामलों में क्षेत्रीय दलों का प्रयास यही रहता रहा है कि इसे केंद्र की भाजपा सरकार को फंसाने की साजिश करार देता है, इसी तर्ज पर सोरेन ने भी आरोप से इनकार किया। कांग्रेस ने सोरेन की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे संघवाद के लिए झटका बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा थाकि भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा लोकतंत्र को नष्ट करने का अभियान चला रही है। कांग्रेस यह भूल गई कि पिछले साल दिसंबर में भी झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस को अंदाजा था कि इसका जिक्र करते ही भाजपा गठबंधन खिल्ली उड़ाने से चूकेगा नहीं। यही वजह रही कि कांग्रेस घोषणा पत्र में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खाम्ते को लेकर कोई वादा नहीं किया। आश्चर्य यह है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर के यहां छापा मार कर प्रवर्तन निदेशालय ने 35 करोड़ रुपए बरामद किए। इस पर भी मंत्री

आलम ने त्यागपत्र देना जरूरी नहीं समझा। झारखंड में सत्ता में शामिल कांग्रेस ने आलम के इस्तीफा की मांग तक नहीं की। अलनत्ता कांग्रेस ने इससे अपना दामन बचाने की कोशिश जरूर की। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित राहुल गांधी की सभा में मंच पर कांग्रेस कोर्ट से ग्रामीण विकास मंत्री बने आलमगीर आलम को जमह नहीं मिली। कांग्रेस ने आलमगीर को महज यह संदेश देकर औपचारिकता निभाई कि पहले जेल चले सें बरी होकर आओ। इससे पहले झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। सोरेन को जमानत नहीं मिल सकी है। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन 6 अक्टूबर 2023 को कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि अक्सर होता है, हर भ्रष्टाचारी ऐसे मामलों को फंसाने की साजिश करार देता है, इसी तर्ज पर सोरेन ने भी आरोप से इनकार किया। कांग्रेस ने सोरेन की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे संघवाद के लिए झटका बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा थाकि भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा लोकतंत्र को नष्ट करने का अभियान चला रही है। कांग्रेस यह भूल गई कि पिछले साल दिसंबर में भी झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस को अंदाजा था कि इसका जिक्र करते ही भाजपा गठबंधन खिल्ली उड़ाने से चूकेगा नहीं। यही वजह रही कि कांग्रेस घोषणा पत्र में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खाम्ते को लेकर कोई वादा नहीं किया। आश्चर्य यह है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर के यहां छापा मार कर प्रवर्तन निदेशालय ने 35 करोड़ रुपए बरामद किए। इस पर भी मंत्री

योगेन्द्र योगी

देश में भ्रष्टाचार का खंड बन गया है झारखंड

गैर

भाजपा राजनीतिक दलों के लिए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार कोई चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है। यही वजह है कि खासतौर से क्षेत्रीय दलों की सरकारों में बेशर्मी से लूटने की होड़ मची हुई है। झारखंड में एक मंत्री के निजी सहायक के नौकर के घर से मिले करीब 35 करोड़ रुपए मिलने पर किसी भी दल ने कठोर कार्रवाई की मांग तो दूर बल्कि इस भारी-भरकम भ्रष्टाचार के लिए अफसोस तक जाहिर नहीं किया। यह पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की असलियत उजागर हुई हो। इससे पहले भी असीम सुखिंचो में रहे भ्रष्टाचार के मामलों में भी क्षेत्रीय दलों की सत्तारूढ़ सरकारों के काले कारनामे सामने आ चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले सामने आने पर क्षेत्रीय दलों का प्रयास यही रहता रहा है कि इसे केंद्र की भाजपा सरकार की साजिश करार दिया जाए। कांग्रेस ने इन दलों के भ्रष्टाचार के मामलों में संरक्षक की भूमिका निभाई है। कारण स्पष्ट है यदि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के भ्रष्टाचार के मामले उठाती है तो उसे अपनी गिरेबां में भी झांकना होगा। इससे ये दल एक-दूसरे के भ्रष्टाचार के मामलों में छिछालेदार करने लगेंगे। ऐसी हास्यापद स्थिति से बचने के लिए ये दल एक-दूसरे के भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं करते हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामलों में मौन साधे रखा है। यहां तक की कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार काजिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस को अंदाजा था कि इसका जिक्र करते ही भाजपा गठबंधन खिल्ली उड़ाने से चूकेगा नहीं। यही वजह रही कि कांग्रेस घोषणा पत्र में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खाम्ते को लेकर कोई वादा नहीं किया। आश्चर्य यह है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर के यहां छापा मार कर प्रवर्तन निदेशालय ने 35 करोड़ रुपए बरामद किए। इस पर भी मंत्री आलम ने त्याग पत्र देना जरूरी नहीं समझा। झारखंड में सत्ता में शामिल कांग्रेस ने आलम के इस्तीफा की मांग तक नहीं की। अलबत्ता कांग्रेस ने इससे अपना दामन बचाने की कोशिश जरूर की। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित राहुल

दृष्टि

कोण

अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के सियासी मायने को ऐसे समझिए

सुप्रीम

कोर्ट के एक साहसिक निर्णय से जेल में बंद भारतीय राजनेताओं के चुनावों के दौरान बाहर आने और चुनाव प्रचार में अपनी भागीदारी जताने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। समझा जाता है कि कोर्ट के इस उदार पहल से भारत में एक नई सियासी क्रांति का आगाज हो सकता है। लिहाजा, इस निर्णय के सफेद और स्याह पक्ष पर चर्चा करने से पहले यह बता दें कि दिल्ली एक्साइट जर्नलिसि चोपले से जुड़े मनी लॉर्डिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे और पिछले 50 दिन से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आगामी एक जून 2024 तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। ऐसा इसलिए कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉर्डिंग जांच के सिलसिले में विगत 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी के इस निर्णय की तब बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो

भारतीय राजनीतिक इतिहास की अनोखी घटना बन चुकी है। इसी मामले में गत 8 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान ही न्यायमूर्ति खन्ना ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर श्रुक्वार को आदेश पारित कर सकते हैं। इससे एक दिन पहले ही यानी गत 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द और पिछले 50 दिन से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावों के अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी थी कि अगर चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी फ्राइड पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाने वाली ईडी परेशान हो गई। आनन-



फानन में ईडी ने एक हलफनामा दायर करके उनके अंतरिम जमानत का विरोध किया और केजरीवाल की लीगल टीम ने भी कड़ी आपत्ति जताई। जिसके दृष्टिगत सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। यही वजह है कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलने के सियासी और न्यायिक मायने तलाशे जा रहे हैं। क्योंकि जेल में एक असाधारण न्यायिक आदेश है, जो अब बौद्धिक विमर्श का मुद्दा भी बन चुका है। समझा जा रहा है कि कोर्ट के ताजा निर्देश से जहां देश में जनतांत्रिक

भावनाओं को बल मिलेगा, वहीं भ्रष्टाचार और अपराध में शामिल राजनेताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। क्योंकि जेल से बाहर रहने का एक अमोघ कानूनी हथियार कोर्ट के फैसले से उन्हें मिल चुका है। लिहाजा, आने वाले दिनों में जेल में बंद भारतीय राजनेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगे जाने के मामले बढ़ेंगे। बता दें कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल को किसी भी तरह की विशेष राहत देकर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिया जाना समानता और कानून के शासन के लिए अभिशाप जैसा होगा। इससे ऐसी नजीर कायम होगी कि सभी अपराध करने वाले अनैतिक राजनेता चुनावों की आड़ में जांच को नजरअंदाज करेंगे, चाहे वो पंचायत चुनाव प्रचार के मोड़ में रहने का प्रोत्साहन मिलेगा। राजनेता आम आदमी से ऊपर होने और विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। ईडी ने अपनी दलील में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार, जिसे कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार माना है, वह ही हिरासत के दौरान भी रहता। जनप्रतिनिधित्व कानूनी की धारा 62(5) जेल में बंद व्यक्ति के मतदान के अधिकार में कटौती की बात करती है।

किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे जेल में बंद वह व्यक्ति स्वयं भी प्रत्याशी क्यों न रहा हो, जबकि केजरीवाल तो उम्मीदवार भी नहीं हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि अपराधी जेल से ही चुनाव लड़े और जीत भी गए, लेकिन उन्हें कभी इस आधार पर जमानत नहीं मिली। वैसे भी चुनाव प्रचार न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही मौलिक अधिकार। लिहाजा ऐसा होने से कानून का उल्लंघन करने वाले हर अपराधी को राजनीतिज्ञ बनने और वर्ष भर प्रचार के मोड़ में रहने का प्रोत्साहन मिलेगा। राजनेता आम आदमी से ऊपर होने और विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। ईडी ने अपनी दलील में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार, जिसे कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार माना है, वह ही हिरासत के दौरान भी रहता। जनप्रतिनिधित्व कानूनी की धारा 62(5) जेल में बंद व्यक्ति के मतदान के अधिकार में कटौती की बात करती है।

कुछ

अलग

देश

दुनिया से

आप का

नजरीया

विश्व सिनेमा की जादुई दुनिया: सई परांजपे- प्रमुख महिला स्क्रिप्ट राइटर

नए

सिने-दर्शक/सिने-प्रेमी भले ही सई परांजपे के नाम से परिचित न हों, मगर वे सिने-संसार में एक बड़ा नाम हैं। आपने ‘स्पर्श’, ‘चश्मे बंदू’, ‘कथा’ जैसी फिल्में अवश्य देखी होंगी, कम-से-कम इनके नाम अवश्य सुने होंगे। सिने-संसार सई परांजपे को सफल सिने-निर्देशक के रूप में जानता-पहचानता आया है। उनके और वे लोकप्रिय सिनेमा का हिस्सा रही हैं, इसके साथ समीक्षक भी सदा से उनके प्रशंसक रहे हैं। मगर इसके साथ उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है। आज उनके इसी रूप की चर्चा करती हूं। स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक, अभिनेता सई परांजपे के भीतर रूस और भारत का साझा रक्त है। उनका जन्म 19 मार्च 1938 को हुआ था। उनके पिता रूसी थे और मां महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती थीं। पिता चित्रकार थे और मां शकुंतला मराठी अभिनेत्री। उनके नाना ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत थे और उन्हें सर की उपाधि प्राप्त थी। पिता चित्रकार थे और मां शकुंतला मराठी अभिनेत्री। उनके नाना ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत थे और उन्हें सर की उपाधि प्राप्त थी।

सिने-दर्शक/सिने-प्रेमी भले ही सई परांजपे के नाम से परिचित न हों, मगर वे सिने-संसार में एक बड़ा नाम हैं। आपने ‘स्पर्श’, ‘चश्मे बंदू’, ‘कथा’ जैसी फिल्में अवश्य देखी होंगी, कम-से-कम इनके नाम अवश्य सुने होंगे। सिने-संसार सई परांजपे को सफल सिने-निर्देशक के रूप में जानता-पहचानता आया है। उनके और वे लोकप्रिय सिनेमा का हिस्सा रही हैं, इसके साथ समीक्षक भी सदा से उनके प्रशंसक रहे हैं। मगर इसके साथ उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है। आज उनके इसी रूप की चर्चा करती हूं। स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक, अभिनेता सई परांजपे के भीतर रूस और भारत का साझा रक्त है। उनका जन्म 19 मार्च 1938 को हुआ था। उनके पिता रूसी थे और मां महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती थीं। पिता चित्रकार थे और मां शकुंतला मराठी अभिनेत्री। उनके नाना ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत थे और उन्हें सर की उपाधि प्राप्त थी। पिता चित्रकार थे और मां शकुंतला मराठी अभिनेत्री। उनके नाना ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत थे और उन्हें सर की उपाधि प्राप्त थी।

बेरोजगार मस्त नौजवानों की कहानी में ओमी (राकेश बेदी) और जय (रवि बासवानी) मस्त पर आलसी हैं जबकि तीसरा सिद्धार्थ पराशर पढ़ाऊ और शर्मीला है। मजा तब आता है, जब यही चुचाप रहने वाला नेहा राजन (दीपति नवत) का दिल जीत लेता है। इन दोनों की दोस्ती बाकी दोनों की जिंदगी में खलबली पैदा कर देती है। पर अभिनय में इन सबसे बाजी मार ले जाते हैं, पनवाड़ी ललन मियां बने सईद जाफरी। संवाद और मनोरंजक दृश्य सई परांजपे की लेखन की विशेषता है। यहां आप मजे लेकर इसे देख सकते हैं। इस पुरस्कृत फिल्म में नसीर यानी अनिरुद्ध परमार है तो अंधा, परंतु वह इस क्षीणता को खुद पर कभी हावी नहीं होने देना चाहता है। उसका अर्ध बहुत आहत होता है, यदि कोई उसकी न्यूनता को देखते हुए उसकी सहायत करना चाहता है। वह नेत्रहीन लोगों के एक स्कूल का प्रिंसल भी है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात कविता (शबाना आजमी) से होती है, दोनों एक-दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, मगर यह सरल न था। जब शदी की बात आती है तो अनिरुद्ध के मन में संशय होता है, कहीं कविता उस पर दया और सहानुभूति तो नहीं लादेगी। कहीं उसे सरपरस्ती तो नहीं देने लगेगी, सरपरस्ती जिससे उसे

नफरत है। पूरी कहानी की भूम्यस्थिति आपको फिल्म देख कर स्वयं अनुभव करनी होगी। सई ने पुरस्कार पाए नसीर तथा शबाना को फिल्मफेयर का सर्वोत्तम अभिनय का नामांकन मिला। 1992 में सई परांजपे ने सवा दो घंटे की म्युजिकल ड्रामा कॉमेडी फिल्म ‘दिशा’ के संवाद और कहानी लिखी और उसे निर्देशित भी किया। यहां भुखरी में परसाराम (ओम पुरी) है, जो बारह साल से एक कुंआ खोदते हुए ‘पगला परसा’ का खिताब पा गया है। उसकी पत्नी हंसा (शबाना आजमी) बीड़ी फैक्टरी में काम करती है। उनके चार बच्चे हैं, जिन्हें काम सनून कर आप मुस्कुरा उठेंगे। बच्चों के नाम हैं, शर्मीला, जोतेंद, अमिताभ तथा कद्दू। परसा का एक भाई है, सोमा सरपत (रघुवीर यादव) जिसे कुबलाक खेतों में काम मिल जाता है। उनका पड़ोसी थिया, हाल में विवाहित वसंत (नाना पाटेकर) है। वसंत की पत्नी फूलवती (राजश्री सावंत) और बीमार पिता दशरथ (नीलू फुले) है।

चलते सिक्कों के नाम

उम्र

की गलियों में जो तसदीक हो गए, वो चिनार अब पतझड़ के लिए ही है। राजनीति चलते सिक्कों का नाम है और यही राष्ट्र से प्रदेश तक के चुनावों में देखा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हिमाचल में लोकसभा से विधानसभा के उपचुनावों में भाजपा के उम्मीदवारों के चयन में प्रयास और कयास रहा। संगठन के कारण भाजपा ने अपने सिक्के जल्दी उछाले, जबकि कांग्रेस के लिए उपचुनावों में संगठन की तफतीश हो गई। यही वजह है कि भाजपा ने उपचुनावों में आपना सिक्का जमाने के लिए मूल कांग्रेसियों का भाजपा में अवतरण का महोत्सव बना डाला। बेशक यह दांव मुश्किल व चुनौती से भरा नजर आया, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के कुछ सिक्के छीन कर चुनावी आकाश में उछाल दिए। कम से कम कांग्रेस इन्हें खोटा नहीं कह सकी, भले ही उन्हां कभी कहे या इनके बीच सरगना खोजती रहे। कांग्रेस से छिटक कर भाजपा के उम्मीदवार बने नेताओं ने सियासत का मनोविज्ञान बदला है और इसका अरपर उनके भविष्य व पार्टियों के परिदृश्य को नए सिरे से पढ़ रहा है। टिकट आबंटन के चक्रब्यूह में भाजपा ने सियासत के शतरंज को भी हरातन किया है, लेकिन कल इसी बिसात पर चुनावी परिणाम की अपनी एक हैसियत होगी। उपचुनाव में एक भी सीट जीतने पर भाजपा की सफलता का परिणाम सोलह प्रतिशत का लाभ देगा। जाहिर है इस हानि का भागीदार वक्त कांग्रेस के लिए मध्यम साबित हो सकता है। इसलिए भाजपा के पास कांग्रेस के सिक्के हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी भाजपा के दो सिक्के आजमाते हुए डा. राम लाल मार्कंडेय को उछाल कर फेंक दिया। ऐसे में अनुराधा राणा का लाहुल-स्पीति से उम्मीदवार बनना नई करवटों का संभम है। सियासत के शिखर और सियासत के सिफर में अंतर केवल वक्त, विमर्श, वकालत और बगावत का है। हिमाचल में बागी या बगावत न होती, तो छह उपचुनाव या निर्दलियों के इस्तीफे अदालत में न होते। बहरहाल चुनावों की देहरी पर आकर राजनीतिक पार्टियों का व्यवहार असाामान्य होने की वजह सता की अंगुलियां चलाने जैसा हो जाता है। ऐसे में हर चुनाव को उम्मीदवारों की ताजगी चाहिए, लेकिन यह असंभव होता जा रहा है। जिस तरह चुनावी पांव से पाजेब बंधी होती जा रही है, उसी तरह कोई भी वरिष्ठ नेता अपनी विरासत नहीं छोडना चाहता। भाजपा ने मार्गदर्शक मंडल बना कर प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार सरीखे नेताओं के योगदान को पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार की काबिलीयत में चंद्र कुमार या धनी राम शांडिल की उम्र पर गौर नहीं करती। इसी संघर्ष में डा. राम लाल मार्कंडेय भी खुद को राजनीतिक उम्र में संभालने के लिए भाजपा से दूर, कांग्रेस से मजबूर होकर अब निर्दलीय होकर ज्येठ दिखाना चाहते हैं। क्या राजनीति लोकतंत्र के लिए चुनाव का व्यवहार ओढ़ती है या सत्ता के निष्कर्ष में खुद को संभालती है। जो भी बंधा, हिमाचल इस समय केवल दो राजनीतिक पार्टियों में ही नहीं बंधा, बल्कि जनता के उमूल, सत्ता के कबूल और उम्मीदवारों के रसूख पर भी मत विभाजन होगा।

इंडी गठबंधन और पाकिस्तान का डीएनए मिलता-जुलता : योगी

कोडिंग के विरोध में ई-रिक्षा चालकों ने किया प्रदर्शन

सीतापुर (हिंस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस-सपा, इंडी गठबंधन और पाकिस्तान का डीएनए मिलता-जुलता दिख रहा है। सपा-कांग्रेस के समय गरीब भूखें मरते थे। पाकिस्तान की बीमारी ने कांग्रेस के समर्थन में कहा तो वहां भी लोग भूखें मर रहे हैं और यहां 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। पीएम मोदी ने 10 वर्ष में पाकिस्तान की आबादी से अधिक (25 करोड़) लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री, मोहनलालगंज से सांसद व भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर के पक्ष में रविवार को गांधी डिग्री कॉलेज सिधौली सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को 60-65 वर्ष तक मौका मिला, लेकिन इन्होंने विकास नहीं किया। यूपीए सरकार के समय उपचार की व्यवस्था नहीं थी। यह लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे। गरीबों को भूखें मरने देते थे, किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर करते थे, इसलिए मोदी जी ने कहा कि यही समय है, सही समय है। देश के भविष्य के साथ खेलने वाले ऐसे लोगों को जमानत जब्त करा दीजिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु श्रीराम

भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं, इसलिए जनता कहती है कि फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी के तीसरी बार पीएम बनने से वे लोग परेशान हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं और भारत के विकास को देखना नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के गठबंधन और पाकिस्तान के स्वर ऐसे ही आ रहे हैं। यह भारत, भारतीयता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, पिछड़ी, अनुसूचित जाति व जनजाति, बेटी-व्यापारी के विरोध में हैं, जबकि देशवासियों ने ठाना है कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत से सत्ता सौंपकर विकसित-आत्मनिर्भर भारत को परिकल्पना को साकार करना है। सीएम ने कहा कि 2022 में भाजपा के मंत्री रावत को आशीर्वाद देकर विधानसभा में पहुंचाया तो परिणाम दिख रहे हैं। सबसे अधिक मकान सीतापुर जनपद में बने हैं। हम नैमिष को अयोध्या धाम की तर्ज पर विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। सिधौली का रास्ता आसान हो रहा है, क्योंकि लखनऊ का किसान पथ सीधे मोहनलालगंज से जोड़ने को उतावला दिख रहा है। रेलवे लाइन दस वर्ष पहले छोटी लाइन थी, लेकिन विकास कार्यों के कारण आज यह डबल गेज हो चुकी है। आज बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से



दौड़ते हुए यात्रा कराती है। कांग्रेस-सपा के पास विकास का विजन नहीं था। कोयले के इंजन से चलने वाली भाप की तरह ही विकास की रफ्तार भी उनके समय छुक-छुक करके चलती थी और कुछ देर चलकर रुक जाती थी। उसमें भी वे कमिशन देखते थे, लिहाजा योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा के लोग नई साजिश कर रहे हैं। यह लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ कर पिछड़ी, अनुसूचित जाति व जनजाति के

आरक्षण पर संघ लगाता चाहते हैं। इन्होंने अपने अधिकार में घुसपैठ न करने दीजिए। यूपीए सरकार के समय भी यह लोग साजिश कर चुके हैं। इंडी गठबंधन के प्रमुख घटक राजद के लालू प्रसाद यादव ने बिहार में कहा कि यहां पर मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण दे देंगे, लेकिन हिंदुस्तान यह स्वीकार नहीं करेगा। बाबा साहेब ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। यह लोग बैकडोर से अनुसूचित जाति के आरक्षण में संघ लगाता चाह रहे थे। सीएम ने आरोप लगाया कि यह लोग हिंदुस्तानियों को पैतृक संपत्ति पर विरासत टैक्स लगाकर जजिया कर लगाता चाहते हैं। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। औरंगजेब को हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा। औरंगजेब मुगलों का सबसे कुरुर शासक था। कोई सभ्य मुसलमान अपने बच्चों का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन उसके जजिया कर को कांग्रेस व सपा वाले विरासत टैक्स लगाकर आपकी संपत्ति को हड़पना और भारत को अपमानित करना चाहते हैं। यह लोग कहते हैं कि सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों को खानपान की स्वतंत्रता देंगे। चावल, दाल, रोटी-मीठा अल्पसंख्यक व

बहुसंख्यक दोनों खाते हैं। दरअसल बहुसंख्यक समाज कहता है कि हम गोमांस नहीं खाएंगे, गोहत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस-सपा उन्हें गोमांस खाने की छूट देना चाहती है। इस पाप के लिए आने वाली पीढ़ी व पूर्वज कभी माफ नहीं करेंगे। हम कांग्रेसियों को गोहत्या की स्वतंत्रता नहीं देंगे। सीएम ने कहा कि आपके वोट की ताकत की बदौलत अयोध्या में 500 वर्ष में श्रीराम लला का आगमन हुआ। हमारी पीढ़ी ने पूर्वजों के संकल्प को पूरा किया। मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प इसलिए पूरा हो पाया, क्योंकि आपके वोट ने भाजपा को ताकत दी। प्रदेश में सपा और देश में कांग्रेस होती तो रामभक्तों पर वैसे ही गोली चलती, जैसे 1990 में चलाती थी। रामद्वी, रामभक्तों पर गोली चलाने वाले और आतंकवादियों के पैरोकार देश में शासन नहीं करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री व मोहनलालगंज से भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर, भाजपा सीतापुर के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल, जिला प्रभारी सीतापुर निर्मल सिंह, विधायक मनीष रावत, विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान, उमेश द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर श्रद्धा सागर आदि की मौजूदगी रही।



भागलपुर (हिंस)। भागलपुर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह के द्वारा सभी ई-रिक्षा में कोडिंग कराए जाने के विरोध में ई-रिक्षा चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज काफी संख्या में ई-रिक्षा चालकों ने मनाली चौक पर प्रदर्शन किया। ई-रिक्षा चालकों का कहना है कि जिस रूट का हमें कोडिंग दिया गया है। उस रूट में यात्री कम मिलते हैं। जिससे हमारे रोजी-रोटी पर भी आघात हो गया है। हम लोग मांग करते हैं कि कोडिंग नियम को बंद किया जाए। इसके साथ ही जो बाहर से ई-रिक्षा लेकर भागलपुर में यात्री को चढ़ाते हैं उसको जिला प्रशासन बंद कराए। अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे।

दरभंगा संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित : जीवेश्वर मिश्र

मधुबनी (हिंस)। दरभंगा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रविवार जनसंपर्क अभियान जारी बताया। विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित जीवेश्वर मिश्र ने रविवार को बताया कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर का अपार बहुमत से जीत सुनिश्चित है। विहिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दरभंगा मिसर टोला निवासी पं. जीवेश्वर मिश्रा ने कहा कि लोक सभा क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी हिस्सा में चहुँदूर उसाहपूर्वक वातावरण में कमल छाप को वोट करने को मतदाता तत्पर है। दरभंगा संसदीय क्षेत्र में सोमवार को मतदान में एकीकृत गुच्छ वोट भाजपा को मिलना सुनिश्चित बताया। कहा कि विरोधी दल महागठबंधन प्रत्याशी के काले काननामा जग जाहिर है। विहिप के उपाध्यक्ष श्री मिश्रा ने कहा कि दरभंगा के राजद प्रत्याशी द्वारा दीनानाथ सहनी व कारु राम के नाखून उखार कर प्रताड़ित करने व मूत्र पिलाने की विषम विवादास्पद घटना की सर्वविधित आरोप अभी भी आमजनों के मन में व्याप्त है।

किसी के कहने पर नहीं अपने मन से चुनौती अपना उम्मीदवार लातेहार (हिंस)। किसी के कहने पर नहीं अपने मन से चुनौती अपना उम्मीदवार। यह कहना है लातेहार की नैतिक मतदान के प्रति सजग मतदाता शीला देवी का। वह रविवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा 20 मई को होने वाले मतदान के बारे में पूछने पर प्रतिक्रिया दे रही थीं। शीला देवी पेशे से सफाईकर्मी हैं।

सड़क के निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने जमकर किया प्रदर्शन



अररिया (हिंस)। जिले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के पचीरा पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बन रही सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने रविवार को जमकर प्रदर्शन किया। घंटिया किस्म के सामग्री के इस्तेमाल होने पर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोकवा दिया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों में भगवत शर्मा, बेचन शर्मा, दिलीप शर्मा, गौतम भगत, लड्डू सिंह, मोहन शर्मा, तरुण शर्मा, सुशील सिंह, नित्यानंद सिंह, स्वर्ण लता कुमारी, माला देवी, कार्तिक भगत आदि ने

बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बन रही सड़क के निर्माण कार्य में घंटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। घंटिया किस्म के गिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि एक दिन पहले जिस जगह पर सड़क की पिचिंग हुई है उस जगह की सड़क के पिचिंग को हाथों से अलगाने के बाद अलग रहा है। इससे यह प्रतिष्ठ हो रहा है कि गोड़ी टोला से कालोनी ग्रामीणों के बीच कार्यों में इसी प्रकार से कार्य किया गया है। ग्रामीणों ने सड़क को समस्याओं को विभाग के एसडीओ मनोज कुमार को फोन कर जानकारी दिया गया। ग्रामीणों का कहना था कि इस सड़क में हर हाल में अच्छी गुणवत्ता वाले सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। वहीं मामले को लेकर विभाग के एसडीओ मनोज कुमार ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिली है। मौके पर जांच के लिए जेई को भेजा जाएगा।

गोपालगंज में बोले नीतीश, हमसे दो बार हुई गड़बड़ी अब नहीं होगी, भाजपा के साथ मिलकर करेंगे काम

गोपालगंज (हिंस)। सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज सुरक्षित संसदीय सीट की जीत सुनिश्चित करने के लिए रविवार को पहली बार जिले के मोहमदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। राजद सुप्रिमो लालू प्रसाद के गृह जिले में पहुंचे नीतीश कुमार के निशाने पर लालू परिवार रहा। महमदपुर के गोविंद दास हाईस्कूल में पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि वो केवल अपना परिवार बढ़ाए और मेरा परिवार पूरा बिहार है। उन्होंने कहा कि 15 साल राज करने को मिला इन लोगों ने कुछ नहीं किया। लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो 7 साल राज करने के बाद जेल जाने लगे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिए। कोई काम नहीं किया। लालू यादव



केवल अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमसे दो बार गड़बड़ी हुई है। दो बार उनके साथ गए लेकिन जब देखे कि सरकार में गड़बड़ी हो रही है तो हटना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कहीं नहीं जाएंगे। और

1995 से जो हमारा भाजपा का साथ है उसे निभाएंगे। भाजपा के साथ मिलकर काम करेंगे और देश और राज्य का विकास करेंगे। मुख्यमंत्री ने जिले में हो रहे विकास कार्यों को भी गिनाया। जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, दो पॉलीटेक्निक कॉलेज, तीन आईटीआई और गोपालगंज सदर अस्पताल में बन रहे अत्याधुनिक हॉस्पिटल को विकास का प्रतीक बताया। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने देश के लिए पिछले 10 सालों में बहुत कुछ काम किया है। बिहार में 40 सीटें और देश में 400 सीट से अधिक एनडीए को मिलेगी और फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।

कांग्रेस सत्ता में आई तो कश्मीर में फिर से लागू होगा अनुच्छेद 370 : अमित शाह



प्रतापगढ़ (हिंस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को भाजपा उम्मीदवार एवं मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को जिताने की अपील की। अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू कर देंगे। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने अपने वादे के मुताबिक कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए हटा दिया है लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसको पचा नहीं पा रहे हैं। शाह ने कहा कि तीसरे चरण में ही भाजपा 200 सीटों के करीब पहुंच गई है। चौथे चरण में ढाई सौ सीटों तक पहुंच

जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश से आतंकवाद, नक्सलवाद को समाप्त किया है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के लिए वोट मांगा और कहा कि इन्हें तीसरी बार संसद भेजकर क्षेत्र का विकास कराने का कार्य करें। शाह ने जनसभा में भीड़ को देखकर कहा कि यह जनसैलाव देखकर लगता है कि जीत सुनिश्चित है। मंच पर पहुंचते ही अमित शाह बोले भीड़ देखकर लगता है कि आप लोगों ने चुनाव परिणाम मतदान के पहले ही सुनिश्चित कर दिया है। उन्होंने मंच से भगवान श्री राम को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि यह वो धरती है, जहां वनवास के लिए अयोध्या से निकले भगवान राम और माता सीता ने रात्रि विश्राम किया था। उन्होंने गौतम बुद्ध को भी नमन किया। इसका बाद उन्होंने भात सिंह का साथ देने वाली दुर्गा भाभी को नमन किया। गृहमंत्री ने कोशिका लोकरसभा के लोगों से तीन हैटिक लगवाने की हामी भारी जिसमें उन्होंने पहली हैटिक मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने, दूसरी हैटिक यूपी से सपा और बसपा को सूर्यदा साफ करने और तीसरी बार विनोद सोनकर को सांसद बनाने की बात कही।

हनुमान चालीसा पाठ कर देंगे बम ब्लास्ट के शहीदों को श्रद्धांजलि

जयपुर (हिंस)। राजधानी में 13 मई, 2008 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 13 मई को सांगानेरी रोड स्थित श्री पूर्व मुखी हनुमान जी मंदिर के बाहर सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा। श्री हनुमान चालीसा प्रबंध समिति के अध्यक्ष अमरनाथ महाराज और मंदिर महंत मदन लाल शर्मा के सांनिध्य में होने वाली हनुमान चालीसा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम संयोजक त्रिलोक खंडेलवाल, पूर्व पार्श्व अजय यादव, अरुण खटोड़, सरदार राजेश किशु, भंवरलाल, महिला संयोजक कुसुम यादव, गणेश विवालय, प्रभात शर्मा, नीरज चतुर्वेदी, पिकं शर्मा, गिरांज नाटाणी, संपत बिसला ने आयोजन की तैयारियों में जुटे हैं।

अंग प्रत्यारोपण मामला : फोर्टिस अस्पताल के दो चिकित्सकों को कोर्ट ने पुलिस को तीन दिन के रिमांड पर सौंपा

जयपुर (हिंस)। मानव तस्करी एवं अंग प्रत्यारोपण के संबंध में दर्ज प्रकरण में जवाहर सिकल पुलिस ने शनिवार को फोर्टिस अस्पताल के दो चिकित्सकों को गिरफ्तार किया था इनको रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर इन्हें 15 मई तक रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस आरोपी चिकित्सकों से पूछताछ अंग प्रत्यारोपण और तस्करी के मामले को अहम जानकारी जुटाएगी। इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां संभव है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि जवाहर सिकल पुलिस थाना में मानव तस्करी एवं अंग प्रत्यारोपण के संबंध में दर्ज प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फोर्टिस



अस्पताल मालवीय नगर के गिरफ्तार किया था। इन दोनों को नेफ्रोलॉजिस्ट चिकित्सक जितेन्द्र गोस्वामी निवासी और यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक संदीप गुप्ता को रविवार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें तीन दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप गया है।

लोस चुनाव : कानपुर सीट पर सपा और बसपा का आज तक नहीं खुला खाता

लखनऊ (हिंस)। देश की राजनीति में कानपुर लोकसभा सीट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले तीन दशकों से यहां कांग्रेस और भाजपा के बीच जीत-हार का सिलसिला जारी है। कानपुर सीट पर अब तक 17 संसदीय चुनाव हो चुके हैं। अहम बात यह है कि इस सीट पर बसपा और सपा का अब तक जीत का खाता नहीं खुला है। अब तक सपा-बसपा यहां ज्यादातर तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं। गौतमलब है कि कानपुर सीट पर पिछले दस वर्षों से भाजपा का कब्जा है। कानपुर सीट पर अब तक हुए 17 चुनाव में कांग्रेस छह बार और भाजपा को पांच बार जीत हासिल हुई है। वहीं, कांग्रेस और भाजपा के

प्रत्याशी इस सीट पर जीत की हैटिक का रिकार्ड भी बना चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 1989 के आम चुनाव में पहली बार कानपुर सीट से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। बसपा प्रत्याशी शारिफ को 11219 (2.64 प्रतिशत) वोट हासिल हुए। चौथे स्थान पर रहा बसपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव में सीपीएम उम्मीदवार सुभाषिणी अली ने जीत हासिल की थी। 1991 के आम चुनाव में बसपा प्रत्याशी राम नाथ 3.94 फीसदी वोट पाकर पांचवें स्थान पर रहा। बसपा प्रत्याशी अपनी जमानत जब्त होने से बचाने में विफल रहा। ये चुनाव भाजपा के जगतवीर सिंह द्रोण ने जीता था। 11वीं लोकसभा के साल 1996 में हुए चुनाव में

बसपा प्रत्याशी शशीफुदीन अहमद की जमानत जब्त हुई। तीसरे स्थान पर रहे बसपा प्रत्याशी के 9.00 फीसदी वोट हासिल हुए। इस चुनाव में भाजपा जीती और कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। साल 1998 के आम चुनाव में बसपा का साथ देने वाली दुर्गा भाभी को नमन किया। गृहमंत्री ने कोशिका लोकरसभा के लोगों से तीन हैटिक लगवाने की हामी भारी जिसमें उन्होंने पहली हैटिक मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने, दूसरी हैटिक यूपी से सपा और बसपा को सूर्यदा साफ करने और तीसरी बार विनोद सोनकर को सांसद बनाने की बात कही।

के अनुभव चौथे स्थान पर रहे। अनुभव को 4.47 फीसदी वोट मिले। 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस के श्रीप्रकाश यहां से तीसरी बार सांसद बने। बसपा की सुखदा मिश्रा को 9.43 फीसदी वोट मिले। तीसरे स्थान पर रही सुखदा मिश्रा की जमानत जब्त हुई। 2014 में बसपा प्रत्याशी सलीम अहमद को 6.37 फीसदी वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। 2019 के चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन का था। कानपुर सीट सपा के खाते में थी। बता दें, 2014 और 2019 का चुनाव भाजपा ने जीता। 1998 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की। सपा प्रत्याशी सुरेंद्र मोहन अग्रवाल 29.40 फीसदी वोट पाकर

दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव भाजपा के जगतवीर सिंह द्रोण ने जीता। इस चुनाव में कांग्रेस और बसपा तीसरे व चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस बसपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। 1999 में सपा प्रत्याशी श्याम लाल गुप्ता 6.40 फीसदी वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। गुप्ता की जमानत जब्त हो गई। 2004 के आम चुनाव में सपा प्रत्याशी हाजी मुश्ताक सोलंकी तीसरे स्थान पर रहे। सोलंकी को 25.75 फीसदी वोट मिले। 2004 के चुनाव में सपा के सुरेंद्र मोहन अग्रवाल को 6.81 फीसदी वोट मिले। चौथे स्थान पर रहे अग्रवाल की जमानत जब्त हुई। 2014 के चुनाव में सपा प्रत्याशी सुरेंद्र मोहन अग्रवाल चौथे स्थान पर रहे।

दो मोटर साइकिल की टक्कर में मां-बेटे सहित तीन की मौत

फिरोजाबाद (हिंस)। एका थाना क्षेत्र के गांव नगला गजू अंतर्गत रविवार को दो मोटर साइकिल की टक्कर में मां-बेटे सहित तीन की मौत हो गई। एक युवक घायल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को अस्पताल भिजवाया। गांव नगला गजू निवासी विजय कुमार रविवार को अपनी मां ओमा देवी (52) को मोटर साइकिल में बैठाकर मुस्ताफाबाद से दवा दिलाकर अपने गांव लौट रहा था। गांव के पास पहुंचते ही सामने से आए तेज रफ्तार बाइक से उनकी मोटर साइकिल टकरा गई। दूसरी बाइक में दो युवक सवार थे। आमाने-सामने वाहनों की टक्कर में सभी घायल हो गए। पुलिस सभी घायलों को सरकारी ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी लेकर पहुंची, जहां चिकित्सक ने विजय कुमार उसकी मां ओमा देवी और दूसरी बाइक पर सवार जसराना निवासी सोनू (25) को मृत घोषित कर दिया। वहीं, सोनू के साथ दूसरे साथी का इलाज चल रहा है।

अंदर के अर्जुन की खोज स्कूल ऑफ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सों को किया गया सम्मानित गीता ने आयोजित किया गीता कांटेस्ट मरीजों के सेहतमंद होने में नर्सों का महत्वपूर्ण योगदान : नीतेश बेरलिया



जयपुर (हिंस)। भगवद गीता का पाठन करने वाले सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण मूवमेंट के स्कूल ऑफ गीता ने आज 12 मई को गीता कांटेस्ट सीनियर का आयोजन किया। भगवदगीता की शिक्षाओं का संदेश देने के लिए हरे कृष्ण मूवमेंट एवं कृष्ण भावनामृत सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में गीता कांटेस्ट का आज एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल में

आयोजन किया गया, जिसमें सबसे बड़े उस्साह से भाग लिया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। गीता कांटेस्ट 16 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लिए था और परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों था। हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर के मीडिया प्रभारी सिद्ध स्वरूप दास ने बताया की आज मातृत्व दिवस विशेष पर गीता कांटेस्ट का आयोजन बहुत ही

सफलता पूर्वक हुआ इसके लिए प्रतिभागियों को कांटेस्ट की तैयारी प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुकवार को शाम 8 से 9 बजे यूट्यूब चैनल स्कूल आफ गीता लाइव पर करवाई गई। उन्होंने बताया की इन दिनों मंदिर का 12वां पाटोत्सव चल रहा है जिसके तहत मंदिर में बहुत से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। पाटोत्सव के तीसरे दिन, 12 मई को पीपल'स मीडिया थियेटर रूप का शिशुपाल वध नाटक का मंचन हुआ और चौथे दिन भजन संध्या का आयोजन होगा जिसमें कुमारी आकांशा राव और श्री राजेश शर्मा जी भजन प्रस्तुति देंगे।

रामगढ़ (हिंस)। मारवाड़ी युवा मंच रामगढ़ केंद्र शाखा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मंच के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल और नीतेश बेरलिया के नेतृत्व में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि नर्सिंग होम की संचालिका डॉ. निखि बेरलिया थी। मौके पर सचिव धीरज बंसल ने बताया कि इस दिवस ब्रिटिश नर्स फेलोरल नाइटिंगेल के जन्मदिवस को समर्पित है। उन्होंने कहा कि मरीजों के सेहतमंद होने में नर्स महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वहीं पूर्व अध्यक्ष नीलंदि अग्रवाल ने कोरोना काल में फ्रंट लाइनर के रूप में काम करने वाली नर्सों की सेवाओं को नमन किया। वहीं समारोह के दौरान संस्था के सदस्यों की ओर से नर्सों को पुष्प गुच्छ दे कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर अस्पताल का दिमाग है, तो नर्स अस्पताल का दिल है। दिमाग बंद हो जाए

तो दिल चलता रहता है, लेकिन दिल बंद हो जाए तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। यह विचार मीडिया प्रभारी राहुल अग्रवाल ने

विश्व नर्सिंग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में रखा। रविवार को बेरलिया अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष श्रीजय मेवाड़ ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नर्स का बहुत बड़ा योगदान है। कॉलेज हमें डिग्री देते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन इंजेक्शन लगाने से लेकर कई तरह के काम अस्पताल में आने पर नर्स ही सिखाती हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस को ही विश्व नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थीं। जिसके चलते जनवरी 1974 में इंटरनेशनल कार्डिसल ऑफ नर्स की ओर से 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाने की घोषणा की गई। साथ ही फ्लोरेंस ने गरीब और बीमारों की मदद की। मौके पर डॉ. राहुल बेरलिया ने कहा कि सब कुछ पढ़ाई के दौरान किताबों से नहीं सिखा जाता है। डॉ. बनने की पहली सीढ़ी नर्स के पास से होकर जाती है। क्योंकि नर्स ही इंजेक्शन लगाना सिखाती हैं। नर्स शीला ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में विस्तार से बताया। नर्स सुमित्रा ने कहा कि फ्लोरेंस ने अपने नर्स के काम को बड़ी ही जिम्मेदारी से निभाया। उन्होंने लैंप लेकर सैनिकों की मदद की।



तमिलनाडु के अंगूर किसान संकट में, तेज गर्मी से उपज में 80 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट की आशंका

चेन्नई। तमिलनाडु के अंगूर किसान निराश हैं। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान उच्च तापमान के कारण अंगूर की पैदावार में भारी गिरावट की आशंका है। राज्य में अंगूर की दो मुख्य किस्में पन्नीर थिराचाई (मस्कट हैम्बर्ग) और ओडेपट्टी बीज रहित अंगूर - उगाई जाती हैं।

पन्नीर थिराचाई के मुनियंदी ने लगभग 10 एकड़ भूमि पर पन्नीर थिराचाई की खेती की है। बताया कि उच्च तापमान के कारण फसल की पैदावार में भारी गिरावट आएगी। आम तौर पर, एक एकड़ में 10-12 टन अंगूर होते हैं। लेकिन तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण, उपज प्रति एकड़ तीन टन से भी कम होगी। उन्होंने आगे बताया कि एक एकड़ अंगूर की खेती के लिए किसान को करीब 1.25 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि पैदावार प्रति एकड़ तीन टन तक गिर जाए तो किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। पन्नीर थिराचाई किसान संघ के नेता करुणपन राजू ने कहा, हमारे लगभग 90 प्रतिशत किसान कन्नम क्षेत्र में फलों की खेती कर रहे हैं। लू के

थपेड़ों ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है। करीब 300 किसान पांच हजार एकड़ भूमि पर खेती कर रहे हैं और हमें भारी नुकसान की आशंका है। उन्होंने यह भी कहा कि उपज आम तौर पर मिलने वाली पैदावार के 80 प्रतिशत से कम होगी। उन्होंने तमिलनाडु कृषि विभाग से उनके नुकसान के लिए मुआवजा देने का आह्वान किया है। ओडेपट्टी बीज रहित अंगूर किसानों की भी यही कहानी है। ओडेपट्टी थैनी जिले का एक क्षेत्र है, जहाँ लगभग 1,000 एकड़ भूमि पर बीज रहित अंगूर की खेती की जाती है,

जिसमें 200 किसान शामिल हैं। अंगूर किसान कृष्ण शेवर ने बताया, हम अंधकारमय भविष्य का सामना कर रहे हैं। हमें एक एकड़ से केवल दो-तीन टन अंगूर ही मिलेगा जो बहुत कम है। आम तौर पर, हम एक एकड़ भूमि से लगभग 12 टन फसल काटते हैं। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार ओडेपट्टी अंगूर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 50 रुपये प्रति किलोग्राम तय करे, जैसे राज्य सरकार ने फसल नुकसान होने पर गन्ने और धान के लिए किया था।

न्यूज़ ब्रीफ

अब पैन-आधार वैरिफाई करेगा पोस्ट ऑफिस, गडबड़ी मिली तो नहीं कर पाएंगे निवेश



नई दिल्ली। पिछले साल 1 अप्रैल से पोस्टऑफिस की स्कीम में निवेश करने के लिए पैन और आधार की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस आपके परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) की वैलिडिटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस-चेक करके वैरिफाई करेगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आपका पैन आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आपने पोस्ट ऑफिस की स्कीम के लिए जो नाम और जन्मतिथि की जानकारी दी है, वह सही है या नहीं। इनमें कोई गडबड़ी मिलती है तो आप इन स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। पैन वैरिफिकेशन सिस्टम प्रोटीन ई-जीओवी टैबनोलॉजीस (पूर्व में एनएसडीएल) सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इस सिस्टम से मिले रिसर्च के आधार पर पैन को फिनाकिल में मान्य किया जाता है। यह व्यवस्था 30 अप्रैल, 2024 तक लागू थी। 7 मई को जारी डाक विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पैन वैरिफिकेशन से संबंधित प्रोटीन सिस्टम को 1 मई, 2024 को संशोधित किया गया है। अगर आपने अभी तक भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसे फटाफट कर लें। ऐसे लोग जो 30 जून, 2023 की समयसीमा तक पैन-आधार लिंक नहीं करा सके हैं उन पर पेनल्टी लगाने की समयसीमा में आकर विभाग ने डील दी है। आयरकर विभाग के मुताबिक, 31 मई तक आधार के साथ पैन को लिंक कर लेने पर टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयरकर नियमों के अनुसार करदाता को अपने पैन को अपने आधार नंबर के साथ लिंक करना होता है। अगर ये दोनों लिंक नहीं होते तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना जरूरी है।

डबल सिलेंडर वाली बाइकों में रॉयल एनफील्ड का दबदबा



नई दिल्ली। भारत में हेवी बाइक्स की कैटेगरी में 350-400सीसी इंजन वाली बाइक्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है, लेकिन इससे भी अधिक पॉवरफुल डबल सिलेंडर वाली मोटरसाइकिलों को भी लोग जमकर खरीद रहे हैं। इस सेगमेंट में भी रॉयल एनफील्ड का दबदबा है। रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को सबसे पहले ब्रिटेन में लॉन्च किया था। वहां ये बाइक काफी पॉपुलर हुई जिसके बाद इसे 2018 में भारत में लॉन्च किया गया। यह 650सीसी डबल सिलेंडर इंजन सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। इंटरसेप्टर 650 की एक्स-शोरूम कीमत 3.02 हजार रुपये से शुरु होती है। रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650 बाइक में भी कंपनी ने डुअल सिलेंडर का इस्तेमाल किया है। यह बाइक अपने पॉवरफुल इंजन और जबरदस्त लुक के चलते बाइक प्रेमियों के लिए बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इस बाइक में इंटरसेप्टर 650 से अलग, स्पॉर्टी राइडिंग पोजिशन मिलता है। इसकी कीमत 3.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरु होती है। कावासाकी निजा 300 में भी कंपनी ट्विन सिलेंडर इंजन दे रही है, जिसके चलते इस बाइक की परफॉरमेंस काफी बेहतर है। इस बाइक की कीमत 3.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरु होती है। ये एक एडवेंचर टूरर बाइक है जिसे ऑफ रॉडिंग के लिए भी बेहद पसंद किया जाता है। भारत में इसकी कीमत 12.95 लाख रुपये से शुरु होती है।

देश के रक्षा क्षेत्र को अगले 10 वर्षों में 138 अरब डॉलर के ऑर्डर मिल सकते हैं नौमुद्रा का दावा

नई दिल्ली। नौमुद्रा की ओर से जारी इंडिया डिफेंस नामक एक रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की बढ़ती मांग के बीच भारत के रक्षा क्षेत्र को वित्त वर्ष 2024 से 2032 के दौरान 138 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आकर्षक ऑर्डर मिल सकता है। यह स्थिति रक्षा उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास में लगी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का रक्षा पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 30 तक कुल बजट का 37 प्रतिशत तक बढ़ने की ओर अग्रसर है, इस दौरान वित्त वर्ष 2025 में अनुमानित रूप से 29 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। यह वित्त वर्ष 24-30 में 15.5 ट्रिलियन रुपये के संघर्षी पूंजी परिव्यय के बराबर है, जो पिछली अर्धशताब्दी की तुलना में पर्याप्त वृद्धि का संकेत देता है। रिपोर्ट में इस वृद्धि का श्रेय रक्षा बजट बढ़ाने, आधुनिकीकरण के प्रयासों और मेक इन इंडिया जैसी पहल के तहत स्वदेशी विनिर्माण पर सरकार के ध्यान को दिया गया है।

शेयर बाजार की टॉप-10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 1.73 लाख करोड़ कम हुई

एक हफ्ते में 60,678 करोड़ गिरा एचडीएफसी का मार्केट - कैप



मुंबई। पिछले कारोबारी हफ्ते में एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 60,678 करोड़ गिरा है। इस दौरान शेयर बाजार में लिस्टेड देश की टॉप-10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यूएशन में कबाईड रूप से 1.73 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। इस गिरावट के बाद एचडीएफसी का मार्केट कैप 10.93 लाख करोड़ रह गया है। एक हफ्ते पहले (3 मई) को यह 11.54 लाख करोड़ रुपए था। इसके अलावा एलआईसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईटीसी को भी इस दौरान गिरावट का सामना करना पड़ा है।

हिंदुस्तान यूनिटीवर का मार्केट-कैप 33,270 करोड़ बढ़ा - वहीं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिटीवर ने कारोबार के दौरान एक हफ्ते में 33,270 करोड़ रुपए अपनी मार्केट वैल्यू में जोड़ा है। अब कंपनी की वैल्यू 5.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है। भारतीय एयरटेल और इफोसिस का मार्केट कैप भी इस दौरान बढ़ा है। पिछले एक हफ्ते में शेयर बाजार में 1,361 अंक (1.84 प्रतिशत) की गिरावट रही। हफ्ते के आखिरी दिन यह 72,664 के स्तर पर बंद हुआ था।

बाजार में तेजी रही थी - शेयर बाजार में 10 मई को तेजी रही थी। सेंसेक्स 260 अंक की तेजी के साथ 72,664 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 97 अंक की तेजी देखने को मिली, ये 22,055 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली।


एक जून से हफ्ते में तीन बार बंगलूरु से देवघर के बीच इंडिगो की उड़ानें, एयरलाइन ने बयान जारी कर बताया



नई दिल्ली। इंडिगो ने झारखंड के देवघर और बंगलूरु के बीच एक जून से सप्ताह में तीन बार सीधी उड़ान की घोषणा की है। सीधी उड़ानें संचालित होंगी। इन दिनों पलाइट नंबर 6ई 6435 बंगलूरु से सुबह 10.05 बजे उड़ान भरेगी और दोपहर 12.25 बजे देवघर पहुंचेगी। वापसी उड़ान 6ई 6437 दोपहर 12 बजकर 55 मिनट पर देवघर से उड़ान भरेगी और अपराह्न तीन बजकर 25 मिनट पर बंगलूरु पहुंचेगी। इंडिगो एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि नए मार्ग से भारत के दक्षिणी हिस्से से झारखंड के प्रसिद्ध धार्मिक केंद्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इन नई उड़ानों के साथ, बंगलूरु कोलकाता, पटना, रांची और दिल्ली के बाद देवघर के साथ एयरलाइन का पंचांग मंतव्य होगा। इंडिगो के वैश्विक बिक्री प्रमुख विनय मल्होत्रा ने कहा, हमें बंगलूरु और देवघर के बीच सीधी उड़ान की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। मल्होत्रा ने कहा कि यह न केवल ग्राहकों को झारखंड के पवित्र शहर की अनखुई सुंदरता तक पहुंच प्रदान करेगा।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी, मई में निकाले 17 हजार करोड़; ये है उनके डर की वजह

नई दिल्ली। घरेलू इक्विटी बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की बिकवाली लगातार जारी है। डिपॉजिटरी के डेटा के अनुसार, मई में अब तक एफपीआई इक्विटी बाजारों से 17,083 करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक एफपीआई की शुद्ध निकासी 14,861 करोड़ रुपये हो गई है।



एफपीआई ने 2024 की शुरुआत बिकवाली से की थी और जनवरी में 25,744 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की थी। हालांकि, इसके बाद फरवरी और मार्च में एफपीआई ने शुद्ध रूप से क्रमशः 1,539 करोड़ और 35,098 करोड़ रुपये का निवेश किया। लेकिन अप्रैल में फिर से विदेशी निवेशकों ने इक्विटी बाजारों से 8,671 करोड़ रुपये की निकासी की। मई में भी यह रुख जारी है। डिपॉजिटरी के डेटा के अनुसार, घरेलू शेयर बाजारों में मई में सात दिन क्रमशः गिरावट हुआ है। एफपीआई ने इसमें से छह दिन शुद्ध रूप से बिक्री है, जबकि केवल एक दिन ही निवेश किया। इसी तरह, बॉन्ड बाजार से भी एफपीआई

कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने कसी कमर बफर स्टॉक के लिए पांच लाख टन प्याज खरीदना शुरू

नई दिल्ली। अक्सर प्याज के दाम देखते ही देखते आसमान छूने लगते हैं। लेकिन चुनाव नजदीक देख सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती। इसलिए सरकार ने इस साल अपने बफर स्टॉक के लिए पांच लाख टन प्याज खरीदने की योजना बनाई है। इसका इस्तेमाल कीमतें बढ़ने की स्थिति में उन्हें काबू करने के लिए किया जा सकता है। इसी को लेकर सरकार ने किसानों से प्याज खरीदना शुरू कर दिया है।



को बाजारों में हस्तक्षेप करने की इजाजत देगा। खासकर तब जब सरकार ने पिछले सप्ताह प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का एलान कर दिया है।

प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाना - गौरतलब है, देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया, लेकिन साथ न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 550 डॉलर प्रति टन तय किया है। इसके साथ ही प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क भी लगा दिया है। पिछले साल अगस्त में भारत ने 31 दिसंबर, 2023 तक प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया था।

माइक्रोसॉफ्ट को कोर्टाना पेटेंट मामले में डेलावेयर कोर्ट से झटका, चुकाने होंगे 24 करोड़ डॉलर

डेलावेयर। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को कोर्टाना पेटेंट मामले में बड़ा झटका लगा है। डेलावेयर के संघीय कोर्ट की ज्यूरी ने वचुअल असिस्टेंट कोर्टाना के इस्तेमाल पर माइक्रोसॉफ्ट को पेटेंट मालिक आईपीए टेबनोलॉजी को 24 करोड़ डॉलर चुकाने का आदेश दिया है।



कोर्ट ने माना कि माइक्रोसॉफ्ट ने आईपीए की तकनीक चुराकर उसके पेटेंट अधिकार का उल्लंघन किया है। कोर्टाना एक वचुअल वॉइस असिस्टेंट है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में पेश किया था। हालांकि, आवाज को पहचानने की जिस तकनीक पर कोर्टाना चलता है, उसे लेकर आईपीए का दावा है कि इसका पेटेंट उसके पास है, जो उसने 2010 में सिरी इंक से खरीदा है। सिरी को बाद में एपल ने खरीद लिया था और इसी नाम से अपना आवाज आधारित वचुअल असिस्टेंट सिरी पेश किया था।

फैसले के खिलाफ अपील करेगी माइक्रोसॉफ्ट - माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने आईपीए का कोई पेटेंट का उल्लंघन नहीं किया है। इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। आईपीए ने 2018 में माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। माइक्रोसॉफ्ट पर व्यक्तिगत डिजिटल सहायकों और आवाज-आधारित डाटा नेविगेशन से संबंधित पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया था। हालांकि, बाद में एक विशिष्ट आईपीए पेटेंट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मामले को कम कर दिया गया।

देश के कई राज्यों में बदले पेट्रोल-डीजल के भाव, ब्रेंट वरुड 89.79 डॉलर प्रति बैरल

नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। डब्ल्यूटीआई वरुड 78.26 डॉलर प्रति बैरल पर बिक रहा है। वहीं ब्रेंट वरुड 89.79 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल 50 पैसे महंगा बिक रहा है। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल 21 पैसे महंगा हुआ है। गुजरात, झारखण्ड, केरल, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल-डीजल की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 22 पैसे सस्ता हो गया है। बिहार में पेट्रोल-डीजल 10 पैसे सस्ता हुआ है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र में भी पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है। गोवा में पेट्रोल 103.94 रुपये और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपये और डीजल 94.34 रुपये प्रति लीटर है। गोवा में पेट्रोल 104.21 रुपये और डीजल 87.83 रुपये प्रति लीटर हो गया है। गुजियाबाद में 94.65 रुपये और डीजल 87.75 रुपये प्रति लीटर हो गया है। लखनऊ में पेट्रोल 94.56 रुपये और डीजल 87.66 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पटना में पेट्रोल 105.18 रुपये और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पॉर्टब्लेयर में पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 79.74 रुपये प्रति लीटर हो गया है।



मन से नकारात्मक विचारों को ऐसे करें छूमंतर



अपने आस-पास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को रोकना मुश्किल है, लेकिन यदि सकारात्मक बन जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा को आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।



» किसी से अधिक अपेक्षा न रखें: मन मुताबिक दूसरों से काम की अपेक्षा रखना आपको निराश ही करेगा इसलिए लोगों से न्यूनतम अपेक्षाएं रखें।

» छोटी-छोटी सफलताओं की खुशियां मनाएं: दिनभर में जो छोटी सफलताएं आपने प्राप्त की हैं उनका जश्न मनाएं। दूसरों के प्रति भी अधिक आलोचना भरा नजरिया न रखें और उनके छोटे-छोटे प्रयासों की सराहना करें।

» आलोचना से बनाएं दूरी: नकारात्मक टिप्पणियों, आलोचनात्मक दृष्टिकोण को व्यक्तिगत रूप से न लें। दूसरों की हताशा का असर खुद पर न पड़े। दूसरों की हताशा और गुस्से पर अगर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो उसका फायदा आपको अपने व्यक्तित्व में दिखाई देगा।

» रहें छौंटाकशी से दूर: अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां लोग नकारात्मक टिप्पणियों या छौंटाकशी में रस ले रहे हों या फिर दूसरों का उपहास कर रहे हों तो ऐसी जगह और स्थिति से खुद को बाहर निकालना ही ठीक है।

» न हों प्रतिक्रियाओं पर गंभीर: नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को आपकी राह की बाधा न बनने दें। हमेशा ऐसे लोगों की बातों को भुलाने के लिए खुद को किसी सकारात्मक गतिविधि के साथ जोड़ें।

अपने आस-पास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को रोकना मुश्किल है, लेकिन यदि सकारात्मक बन जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा को आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

» किसी से अधिक अपेक्षा न रखें: मन मुताबिक दूसरों से काम की अपेक्षा रखना आपको निराश ही करेगा इसलिए लोगों से न्यूनतम अपेक्षाएं रखें।

» छोटी-छोटी सफलताओं की खुशियां मनाएं: दिनभर में जो छोटी सफलताएं आपने प्राप्त की हैं उनका जश्न मनाएं। दूसरों के प्रति भी अधिक आलोचना भरा नजरिया न रखें और उनके छोटे-छोटे प्रयासों की सराहना करें।

» आलोचना से बनाएं दूरी: नकारात्मक टिप्पणियों, आलोचनात्मक दृष्टिकोण को व्यक्तिगत रूप से न लें। दूसरों की हताशा का असर खुद पर न पड़े। दूसरों की हताशा और गुस्से पर अगर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो उसका फायदा आपको अपने व्यक्तित्व में दिखाई देगा।

» रहें छौंटाकशी से दूर: अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां लोग नकारात्मक टिप्पणियों या छौंटाकशी में रस ले रहे हों या फिर दूसरों का उपहास कर रहे हों तो ऐसी जगह और स्थिति से खुद को बाहर निकालना ही ठीक है।

» न हों प्रतिक्रियाओं पर गंभीर: नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को आपकी राह की बाधा न बनने दें। हमेशा ऐसे लोगों की बातों को भुलाने के लिए खुद को किसी सकारात्मक गतिविधि के साथ जोड़ें।

उतार-चढ़ाव भरे मौसम में हमारे शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। मौसम में टंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और एसी की आदतों को नहीं छोड़ पाते, जिससे सर्दी-जुकाम की गिरफ्त में आ जाते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हम तेज धूप और गर्मी से पसीने में लथपथ आते हैं और एसी, कूलर या पंखे के सामने बैठ जाते हैं या बाहर से आकर फ्रिज का टंडा पानी पी लेते हैं। इससे सर्दी-गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आज से ही उन गलत आदतों को छोड़ दें, जो आपको सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

सफाई का रखें ध्यान

किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए हाथों को साबुन से धोएं। आपकी साफ-सफाई संक्रमण को रोकने में मददगार साबित होगी। मौसम में बदलाव आने पर रात को सोते वक्त नमक युक्त गुनगुने पानी से गमारे और भाप लेने की आदत डालें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

तला मुना खाने से बचें

इस मौसम में बाहर का, बासी, तला-मुना, मिर्च-मसाले वाला कुछ भी खाने से बचें। खूब पानी पीएं और घर का बना हल्का भोजन ही


रहना है स्वस्थ, तो छोड़ दें अपनी इन चार बुरी आदतों को...



लें, हमेशा साफ और उबला हुआ पानी ही पीएं।

संक्रामित व्यक्ति से दूर रहें

कोशिश करें की आप किसी भी संक्रामित व्यक्ति के संपर्क में न आएं। यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। अगर किसी संक्रामित व्यक्ति के संपर्क में आना भी पड़े तो साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें। दोस्ती और प्यार अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य का



कई लोगों के लिए शेविंग काफी तकलीफदेह होती है। उन्हें या तो शेविंग करने का सही तरीका नहीं मालूम, या फिर जल्दबाजी में वो खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो आइए हम आपको शेविंग करने के 10 परफेक्ट तरीके बताते हैं।

1. सबसे पहले चेहरे को धोएं

शेविंग करने से पहले चेहरे को साफ पानी से धोना चाहिए। कभी भी सीधे शेविंग क्रीम नहीं लगानी चाहिए। चेहरा अगर अच्छी तरह से धुला होगा, तो इसमें खरोंच लगने की स्थिति में इंफेक्शन नहीं होगा।

2. दाढ़ी को कैसे बनाएं मुलायम

अगर आप चाहते हैं कि शेविंग करते समय आपकी दाढ़ी मुलायम बनी रहे। तो फेसवलोथ को गर्म पानी में 30 सेकेंड तक भिगोकर रखें। उसके बाद दाढ़ी पर लगाएं। इससे त्वचा और बालज मुलायम बन रहेंगे।

3. कैसे लगाएं शेविंग क्रीम

शेविंग क्रीम को सीधे दाढ़ी पर नहीं लगाना चाहिए। क्रीम को हथेली पर लेकर चेहरे और गले पर अपवर्ड सर्कुलर मोशन में अच्छे से लगाएं। क्रीम हर उस जगह लगनी चाहिए, जहां आप शेविंग करना चाह रहे हैं। गालों पर आंखों के नीचे क्रीम न लगाएं।

4. दाढ़ी के ऊपरी हिस्से की शेविंग

शेविंग करते समय रेजर को इधर-उधर कहीं

शेविंग करने से पहले यह 10 टिप्स पढ़ लें

भी न घुमा दें। दाढ़ी के ऊपरी हिस्से की शेविंग के लिए दाढ़ी के ऊपर से जॉ-लाइन तक लंबा स्ट्रोक लें।

5. गले और चिन की शेविंग करना

चिन और गले की शेविंग के लिए गले के निचले हिस्से से ऊपर की दिशा में शेविंग करें। इससे रेजर बनें और इनग्रोन हेयर की समस्या नहीं होगी।

6. क्लोजर शेव

क्लोजर शेव पाने के लिए आप अपने हाथ से त्वचा को चुस्त कर सकते हैं। इससे परफेक्ट शेविंग का मजा ले सकते हैं।

7. ऊपरी होंठ की शेविंग

होंठ के ऊपर की शेविंग करते समय काफी सावधानी रखनी पड़ती है। क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके होंठ को काट सकती है। इस मामले में सामने के दांतों के जरिए फेलाकर होंठों को कसें। अब ऊपर से नीचे की दिशा में शेविंग

करें।

8. रेजर को धोना भी जरूरी

दाढ़ी बनाने समय रेजर को समय-समय पर धोते रहें। हर स्ट्रोक के बाद रेजर को धोएं ताकि बालों के जरिए यह जाम न हो जाए।

9. टच अप्स

चेहरे से अतिरिक्त शेविंग क्रीम को गर्म पानी से धो लें और उस जगह को ढूढ़ने की कोशिश करें। जहां पर शेविंग क्रीम न लगा हो। अपने रेजर को गोला करके इस हिस्से की शेविंग करें। ताकि आपकी दाढ़ी में कोई बाल छूट न जाए।

10. ऑफ्टरशेव का न करें प्रयोग

शेविंग के बाद अक्सर लोग ऑफ्टरशेव लगा लेते हैं। यह नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऑफ्टरशेव में एल्कोहल होता है और यह त्वचा को ड्राई कर देता है। ऐसे में संभव हो, तो ऐसे टोनर को प्रयोग करें जिसमें विटामिन और ऐलो का अर्क हो।

गुड़ और चना साथ में खाने के 4 फायदे



गुड़ सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके सेवन से खून साफ होता है और यह शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है।

डाइबिटीज, एनीमिया आदि की परेशानियां दूर करने में बहुत सहायक है। इन दोनों को साथ में खाने से अधिक लाभ मिलता है।

1. हड्डियों के लिए फायदेमंद

इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका रोजाना सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। गठिया के रोगियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है।

2. मजबूत दांत

इसमें फास्फोरस का मात्रा काफी अधिक होती है। इससे दांत मजबूत होते हैं और ये हर उम्र के लोगों के लिए साधकारी है।

पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये उपाय



हर कोई चाहता है कि वो सबसे सुंदर दिखे लेकिन गर्मियों में ऑयली स्किन होने के कारण चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। इसके लिए लोग कई ट्रीटमेंट और ब्यूटी प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। फिर भी कई बार इससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसे में आप इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं।

1. लहसुन और शहद

1 चम्मच शहद और 1 चम्मच लहसुन को मिक्स कर चेहरे पर लगाएं। इसे चेहरे पर 20 मिनट लगाएं। पिंपल्स से छुटकारा मिलगा।

2. नीम और गुलाब जल

नीम के पत्तों और गुलाब जल को पीस कर पेस्ट तैयार करें। इसे

चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद पानी से धो लें।

3. ऐलोवेरा और हल्दी

ऐलोवेरा जैल में एक चुटकी हल्दी मिला कर चेहरे पर लगाएं और सूखने पर धो लें।

4. नीम और शहद

नीम के पत्तों को पीस कर पेस्ट तैयार करें। फिर इसमें 1 चम्मच नीम का पेस्ट और 1 चम्मच शहद मिला कर चेहरे पर लगाएं।

5. नींबू और टमाटर


2 चम्मच बेसन, टमाटर का रस और नींबू को मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और सूखने पर पानी से धो लें।

रेसिपी



विधि

एक बाउल में पनीर, मिल्क पावडर, चीनी, मलाई, इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। फिर एक कढ़ाई में इस मिश्रण के डालकर धीमी आंच में 30 मिनट तक पकाएं जब तक यह गाढ़ा न हो जाए। जी यह बन जाए तो उसे एक बड़ी प्लेट में निकाल लें और उसमें यह मिश्रण पलट कर इसे चाकू की सहायता से मनचाहें आकार में काट लें और ऊपर से इसमें बादाम और पिस्ता का बारीक टुकड़े काट कर डाल दें। आपकी कलाकंद बनकर तैयार हो गईं। टंडा होने के बाद इसे अपनी परिवार और दोस्तों के साथ इसका मजा लें।



विधि

सबसे पहले सभी सज्जियां को एक गहरे पैन में डाले और आवश्यकतानुसार पानी डालकर अच्छी तरह से उबाल लें। उबलने के बाद इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और मेथी दाने डालकर अच्छी तरह से मेश करके मिला लें इसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इस मिश्रण से टिकियां बना लें। इसके बाद एक बाउल में अंडा डालकर फेंट लें और इसमें मैदा डाल कर अच्छी तरह से मिवस कर लें। आपने जो टिकियां तैयार की है उन्हें अंडे और मैदे के इस मिश्रण में डिप करें और फिर इन्हें कढ़कस किए हुए नारियल से लपेटकर तलने के लिए तैयार कर लें। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करें। जब गर्म हो जाए तो आंच धीमी करके इसमें टिकियां डाल दें और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। आपके कोकोनट कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे।

सुझाव

वेजिटेरियन्स अच्छी बाँडी बनाने में सहायक



जब भी बाँडी बिल्डिंग की बात आती है तो हमें एक बहुत बड़ा मिथ सुनने को मिलता है कि अच्छी बाँडी केवल नॉन वेजिटेरियन (मांसाहारी) से ही बन सकती है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत में कई ऐसे बाँडीबिल्डर और पहलवान हुए हैं। जो शाकाहारी रहकर अच्छी बाँडी बना पाने में सफल ही नहीं रहे बल्कि, उन्होंने दुनिया में अपना नाम किया है। तो शाकाहारी रहकर अगर आप भी अच्छी बाँडी पाना चाहते हैं तो हम आपको 5 ऐसे फूड के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं।

अश्वगंधा

अश्वगंधा ऐसी जड़ी-बूटी है। जो दुनिया भर में फेमस है। इसे शक्तिवर्धक हर्ब्स के तौर पर भी जाना जाता है। यह टेस्टोस्टेरोन लेवल को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की शारीरिक ताकत बढ़ती है और मसल्स टोन भी बढ़ती है। यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर हृदय संबंधी समस्याओं को दूर करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और स्ट्रेस लेवल को कम करता है।



सतावरी



इससे बाँडी बनाने में सहायता मिलती है।

सतावरी में फाइबर, फोलिक एसिड, विटामिन ए, सी और ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स है। सेल डैमेज को सही करता है। सतावरी में हाई लेवल एमीनो एसिड पाया जाता है। जो शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक को यूरिन के रास्ते से बाहर करता है,

बीन्स

बीन्स में किसी भी हरी सब्जियों से कहीं ज्यादा प्रोटीन और सॉल्यूबल फाइबर होते हैं। लेकिन एमिनो एसिड चैन पूरे न होने के कारण इसका प्रोटीन अशुद्ध होता है, अगर बीन्स को ब्राउन राइस के साथ खाया जाए तो यह पूरा हो जाता है। हवी वर्कआउट के बाद इसे ले सकते हैं।

तो फैट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट

यह डे प्रोटीन और कैसईन प्रोटीन बहुत अच्छा जरिया होता है। डे प्रोटीन एम प्रोटीन के मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है। जबकि कैसईन प्रोटीन थोड़ा रस्ती डाइजिस्टिबल प्रोटीन होता है जो डे प्रोटीन के साथ मिलकर पॉजिटिव नाइट्रोजन को बाँडी में बिल्डिंग करता है और बाँडी में लंबे समय से प्रोटीन की जरूरत को पूरा करता है, जिससे बाँडी बिल्डिंग में मदद मिलती है।

पीनट बटर

यह प्रोटीन का बहुत अच्छा जरिया है। जो कि मसल्स बनाने और उसकी मरम्मत करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मोनो और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं जो मसल्स के लिए बहुत फायदेमंद है। एक हेवी वेट वर्कआउट के बाद इसे ले सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट और कैले को भी सेवन मसल्स बनाने के लिए किया जा जाता है।